

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा  
**2023-2024**

होटल प्रबंध केटरिंग प्रौद्योगिकी तथा  
अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान

मावकासियांग, माउडियांगडियांग  
शिलांग-793018



**Annual Report & Accounts**  
**2023-2024**

**INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING  
TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION**  
MAWKASIANG, MAWDIANGDIANG  
SHILLONG-793018

# हिन्दी खण्ड

## प्रस्तावना

खाद्य शिल्प संस्थान जो मेघालय में स्थापित किया गया था, पंजीयन संस्था एसआर एफसीआई(ड)-४४ ६५, १६६५ के तहत पंजीकृत है। इस संस्थान को औपचारिक रूप से होटल मैनेजमेंट एवं खानपान प्रौद्योगिक संस्थान तक उन्नतिकरण किया गया और भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय का सचिव, आइ.ए.एस. श्री एम.पी. बेजबरुवा द्वारा दिनांक २०-११-२००१ को उद्घाटित किया गया। संघ की संशोधित ज्ञापन, विधिवत नियम की संस्था का पंजीयन क्रमांक संख्या एमआर एसओटीएँआइओएचएम-४४ ६५ए १६६५ के अधीन मेघालय संस्था के तहत संस्थान को पंजीकृत किया गया। लक्ष्य एवं उद्देश्य -

मेघालय होटल मैनेजमेंट संस्थान का प्रशासन एवं प्रबंधन को स्थापन एवं जारी रखना, जिस संस्थान का कार्य होगी-

- १) सभी शिल्प कारीगरी को प्रशिक्षण प्रदान करना, सैद्धान्तिक एवं अनुप्रयुक्त और सभी संस्थागत एवं प्रबंधन कौशलों का, जो खानपान संस्थापन का निपुण कार्यकलाप और विद्यालयों का खानपान, उद्योगिक प्रतिष्ठान एवं वैसा ही संस्थानों में कुशल कार्यवाई हेतु आपेक्षित है।
- २) विकासात्मक कार्य और पौष्टिक पाठ्यक्रम के साथ कारोबार एवं सहयुक्त होना और खाद्य सामग्री का उपयोगित कार्यवाही पर आर्थिक प्रबंधन करना।
- ३) पर्यटन का विकास जैसा आतिथ्य कारीगरी कौशलों का विकास में अनुदेश एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ४) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का स्वास्थ्यप्रद नॉन सेरियल खाद्यों को लोकप्रिय बनाने की प्रयासों को सहायता करना, मूलतः संरक्षित खाद्य जो साधारण भारतीय आहार को विविधता की उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है।
- ५) खाद्य अनुसंधान संस्थानों का प्रयासों को सहायता करना, खाद्य वैज्ञानिक और खाद्य प्रौद्योगिकी का पौष्टिक विचारों को प्रस्तुत करने पर प्रभावशाली उपायों का आयाम निकलना।
- ६) शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षाओं को नियंत्रण एवं प्रमाण-पत्र प्रदान, डिप्लोमा और व्यक्तियों को अन्य पुरस्कार देना।
- ७) विधिवत खर्च एवं फीस को निर्धारित तथा माँग करना।
- ८) स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थियों हेतु आवास, हॉलों की स्थापना एवं प्रबंध करना।
- ९) आवास का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना, संस्थानों का अनुशासन विनयमित करना, और उनके स्वास्थ्य, साधारण कल्याण एवं सांस्कृतिक जीवन का प्रबंधन करना।
- १०) आवश्यकतानुसार प्रशासनीय शिक्षण संस्थान, तकनीकी, अनुसचिवीय संस्थाओं का प्रशिक्षण और सुष्ठ पदों में भर्ती करना जो नियम के मुताविक हो।
- ११) विधिवत नियमानुसार फेलोसिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनी, लोन आर्थिक सहायता, पुरस्कार एवं मेडल प्रदान करना।

- क) विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक एवं सरकारी निकाय, संस्थाओं के साथ सम्बंध करना और शिक्षा पाठ्यक्रम, इनके परीक्षाएँ, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट और अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा पुरस्कार आदि पर स्वीकृत प्राप्त करना।
- ख) पेंशन देना, शिक्षक, स्टाक तथा अन्य कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, उनके पत्नी, बच्चे एवं आश्रितों के लिए उपदान प्रदान करना।
- ग) बीमाकर्ताओं को भुगतान प्रदान करना, सोसाईटी द्वारा नियोजित अथवा पत्नी, बच्चे तथा अन्य रिश्तेदार एवं आश्रितों को भविष्य निधि का अनुदान प्रदान करना।
- घ) स्थावर सम्पत्ति का निपटाने अथवा अधिग्रहण का मामले में केन्द्रीय तथा मेघालय राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदनुसार कोई भी रीति से सम्पत्ति का निपटाना।
- ङ) संस्थान का कार्यालयी को आगे बढ़ाने हेतु संस्था अपने जो भी उचित समझे उसपर संस्था से निहित संपत्ति का लेनदेन करना।
- च) बिना जमानत अथवा जमानत रूपये उठाना या उधार लेना अथवा कोई वंधकित जमानत में, जिस अस्थायर संपत्ति पर संस्था का हक है।
- छ) मकान, हॉस्टल, स्कूल और अन्य भवन का निर्माण करना और सभी का विस्तार, मरम्मत आशोधित करना और उसमें बिजली, पानी, नल, फर्निचर, साधन अन्य तथा अन्य उपादानों में सज्जित करना।
- ज) संस्था द्वारा अर्जित आमोदन मनोरंजन पार्क, क्रीड़ा आदि का मरम्मत, विस्तार एवं उन्नयन करना।
- झ) संस्था का उद्देश्य को बढ़ाने हेतु पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तकें, पुस्तिका तथा पोस्टर आदि का प्रकाशन, प्रिंट प्रदर्शन करना।
- ञ) एक निधि का अवस्था जिससे प्रविष्टि होगी -
- १) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए गए रुपये।
  - २) संस्था द्वारा प्राप्त सभी फीस तथा अन्य अंश।
  - ३) अनुदान, उपकृति, हस्तान्तरण आदि के जरिए संस्था को प्राप्त समस्त रुपये।
  - ४) अन्य उपाय एवं दूसरा सूत्रों से संस्था को प्राप्त समस्त रुपये।
- ट) उप-धारा के तहत परिचालित ऐसे बैंको में समस्त रूपये जमा रखना अथवा संस्था के निर्णयानुसार निविष्ट करना।
- ठ) आवश्यकतानुसार न्याय पत्र, विधि-सम्मत कार्य करना, संस्था का लक्ष्य प्राप्त हेतु आनुसंगित तथा संचालनकरना।
- सुविधाएँ -
- संस्थान वर्तमान में नया शिलांग शहरीकरण पर माउडियांगडियांग, माउकासियांग शिलांग-७६३०१८ में अपने मुख्य परिसर में कार्यरत है। यह परिसर पर प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन के अलावा बालक, बालिकाओं के लिए

अलग छात्रावास भी मौजूद है, स्नातक पाठ्यक्रम कक्षा का मौखिक एवं प्रयोगशाला दोनों की कक्षा मुख्य परिसर में ही है, इन्हें हुनर से रोजगार तक का प्रशिक्षण मुख्य परिसर में दिया जाता है।

प्रबंधन -

बोर्ड ऑफ गर्वनर को आई.एच.एम. का नियंत्रण, निर्देशन, साधारण पर्यवेक्षण हेतु अधिकार दिया गया है।

क) बोर्ड का गठन - पदधारी-३१-३  
संस्था के सदस्य, बोर्ड के सदस्य की संख्या उतनी ही रहेगी

सदस्यता : संस्था निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी

- १) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित एक अध्यक्ष
  - २) मेघालय राज्य सरकार का तीन प्रतिनिधि, एक तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का निदेशक होगा, मेघालय के महामहिम राज्यपाल, पदेन, विभाग के प्रशासनीय प्रधान जो तकनीकी शिक्षा के प्रभारी है।
  - ३) केन्द्रीय सरकार के चार प्रतिनिधि जिसमें एक पर्यटन विभाग के एफए तथा उनके नामितव्यक्ति होंगे।
  - ४) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित खानपान प्रौद्योगिकी में नियुक्त व्यक्ति।
  - ५) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित होटल प्रतिष्ठान से दो व्यक्ति।
  - ६) संस्थान का अध्यक्ष, पदेन -
- ख) केन्द्रीय सरकार कोई भी व्यक्ति को कोई भी समय में संस्था का सदस्य नियुक्त कर सकते हैं।  
दिनांक २४ अक्टूबर, २००८ को आयोजित आई.एच.एम. शिलांग का १० वीं बोर्ड का बैठक में निम्नलिखित ११ सदस्यों का गठन करने पर सूचित किया गया।  
३ (तीन) सदस्य पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।  
१ (एक) सदस्य नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट नोएडा  
४ (चार) सदस्य मेघालय सरकार  
१ (एक) सदस्य तकनीकी संकाय  
२ (दो) सदस्य उद्योग से

३१-३-२०२१ के अनुसार सदस्यों निम्नलिखित हैं।

१. आयुक्त एवं सचिव (पर्यटन) मेघालय सरकार, शिलांग-७६३००१	-	अध्यक्ष
२. श्री ज्ञान भूषण अतिरिक्त महानिदेशक ट्रांसपोर्ट भवन, १ संसद मार्ग, नई दिल्ली-११०००१	-	सदस्य
३. वित्तीय सलाहकार भारत सरकार, पर्यटन सरकार, जनपथ रोड नई दिल्ली-११०००२	-	सदस्य
४. क्षेत्रीय निदेशक भारत पर्यटन, गुवाहाटी, असम पर्यटन भवन, तिसरी मंजिल, नेपाली मंदिर के समिप, पल्टन बाजार, गुवाहाटी-७६३००१	-	सदस्य

५. आयुक्त एवं सचिव वित्तीय विभाग, मेघालय सरकार, शिलांग	-	सदस्य
६. निदेशक (ए एवं एफ) एन सी एच एम सी टी, ए-३४, सेक्टर-६२ उद्योग क्षेत्र, नोएडा (उ.प्र.)-२०१३०१	-	सदस्य
७. प्राचार्य होटल, प्रबंधन संस्थान वी.आई.पी.रोड., उच्च हेंगराबाड़ी, बारबारी गुवाहाटी-७८१०३६	-	सदस्य
८. निदेशक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मेघालय सरकार, शिलांग	-	सदस्य
९. निदेशक पर्यटन मेघालय सरकार, शिलांग	-	सदस्य
१०. प्रबंधन निदेशक, होटल एलपाइन कॉन्टिनेंटल, शिलांग	-	सदस्य
११. प्रबंधन निदेशक, होटल पोलो टावर, शिलांग	-	सदस्य
१२. प्राचार्य, आई एफ एम सी टी ए एन, शिलांग संस्थान की कार्यक्षमता २०१८-२०१९	-	सदस्य सचिव

स्थायी प्राध्यापक

१. प्राचार्य	- 00
२. विभागाध्यक्ष	- 1
३. वरिष्ठ व्याख्याता	- 3
४. व्याख्याता	- 3
५. सहायक व्याख्याता	- 2
६. अतिथि प्रवक्ता	- 2

प्रशासनिक कर्मचारी

१. प्राचार्य का निजी सहायक	- १
२. लेखाकार	- १
३. उच्च श्रेणी लिपिक	- ३
४. उवर श्रेणी लिपिक	- ३
५. पिउन	- १
६. सहायक ग्रन्थालय कर्मकर्ता	- १
७. वाहन चालक	- १
८. पेन्शनर	- १
९. एजेसी के माध्यम से अनुबंध कर्मचारियों की भर्ती	
१०. गृहक्षण कर्मचारी	-१४
११. प्रयोगशाला परिचारक	- ७
१२. प्रयोगशाला सहायक	-
१३. कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	- ३
१४. छात्रावास निरीक्षक	- 1
१५. प्रदर्शक	- 1
१६. बढ़ई	- १
१७. बढ़ई सहायक	- 2
१८. सुरक्षा कर्मचारी	-१०
१९. अतिरिक्त	- १

३) प्रस्तुत पाठ्यक्रम -

क) हॉस्पिटालिटी एवं होटल प्रशासक का ३ (तीन) वर्ष वी.एस.सी. पाठ्यक्रम जेईई द्वारा कुल प्रवेश संख्या १६०

४. प्रवेश प्रक्रिया -

क) ३ (तीन) वर्ष का हॉस्पिटालिटी तथा होटल प्रशासन के लिए प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार है-

- सर्वभारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा
- राज्य कोटा सीट तथा उत्तर-पूर्व काउंसिल सीट-

संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामांकित -

योग्यता, आयु निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	समय अवधि	योग्यता
१.	३ (तीन) वर्ष का हॉस्पिटालिटी तथा होटल प्रशासन में वी.एस.सी.	३ साल	१०+२ अथवा समसामयिक समतुल्य

आयु - २५ वर्ष, एस.सी- एस टी के लिए ३ साल छूट

आरक्षण - भारत सरकार का नीति अनुसार

५) २०२२ -२०२३ के बी.एस.सी. हॉस्पिटालिटी एवं होटल प्रशासन में पहले सेमिस्टर में प्रवेश

कुल अन्तरभुक्त	जेईई के परामर्श के तहत प्रवेश प्राप्त					उत्तरपूर्व परिषद एवं विदेशी नागरिक तथा राज्य के आरक्षित स्थान				कुल
	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य ई डब्ल्यू ए	उत्तर-पूर्व परिषद	राज्य का आरक्षण	अवशिष्ट अंश	विदेशी नागरिक	
192	02	-	02	-	-	69	13	-	-	86

१) वर्ष ट्रेट डिप्लोमा खाद्य उत्पादन 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के दौरान अर्न्वभूक्ति

सामान्य	01
(ST)	63
अन्य पिछड़ा वर्ग	-
कुल	67

Shillong

## निधि प्राप्त एवं खर्च नहीं हुए शेष का ब्यौरा

एच0एस0आर0टि0 एवं स0टी0सी0 एवं सि0बि0एस0पी0 के अन्तर्गत कर्मसूची पर

क्र. सं.	दान का कारण	अनुमोदन संख्या एवं दिनांक	राशि दिए गए	कुल राशि प्राप्त	राशि की उपयोग का ब्यौरा	खर्च के बाद बचे हुए राशि है या नहीं
1.	Funds for training under CBSP Scheme of the MOT – Destination Based Skill Development Training	F. No. PMUSD-2/54/2021-PMUSD dated: 16.05.2023	3,38,555/-	3,38,555/-	हाँ	जरूरी नहीं

## लक्ष दिए गए :

## लक्ष प्राप्त :

i)	हुनर से रोजगार प्रशिक्षण कर्मसूची	: 60	हुनर से रोजगार प्रशिक्षण कर्मसूची (अनुसूची I)	: 60
ii)	6 दिन का प्रशिक्षण कर्मसूची	: 210	6 दिन का प्रशिक्षण कर्मसूची (अनुसूची II)	: 210
iii)	उद्यमी प्रशिक्षण कर्मसूची	: 60	6 दिन का प्रशिक्षण कर्मसूची (अनुसूची III)	: Nil
iv)	डेस्टिनेशन आधारित कौशल विकास उद्यमी प्रशिक्षण	: Nil	डेस्टिनेशन आधारित कौशल विकास उद्यमी प्रशिक्षण (अनुसूची III)	: Nil



Chairman  
IHMCTAN  
Shillong



Principal  
IHMCTAN  
Shillong



## उद्यमी कर्मसूची

होटल प्रबंधन संस्थान, शिलांग द्वारा वित्तिय वर्ष 2023-2024 के दौरान


उद्यमी प्रशिक्षण कर्मसूची का ब्यौरा

(पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित) अनुसूची II

क्र. सं.	प्रशिक्षण कर्मसूची	कुल दिनों की संख्या	अवधि	प्रशिक्षण प्राप्ती की संख्या				प्रशिक्षण प्राप्ती की संख्या
				रसोईया	बेटर	बेकर	गृह व्यवस्था (हाउसकीपिंग)	
1.	आई एच एम, शिलांग (जत्था १) डी. पासा	150	6-27 Nov 2023		—	30	—	30
2.	आई एच एम, शिलांग (जत्था २) श्रीमती डी. पासा	150	12 Mar-24 Apr 2024	30				30
			कुल	30		30		60



Chairman  
IHMCTAN  
Shillong



Principal  
IHMCTAN  
Shillong

## उद्यमी कर्मसूची

होटल प्रबंधन संस्थान, शिलांग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान


उद्यमी प्रशिक्षण कर्मसूची का ब्यौरा

(पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित) अनुसूची ष

क्र. सं.	प्रशिक्षण कर्मसूची	कुल घंटों की संख्या	अवधि	लिंग			प्रशिक्षण प्रार्थी की संख्या
				पु.	म.	संख्या	
१.	आई एच एम, शिलांग (जत्या १) डी आर पासा	७००	११६-२६ जनवरी २३	११	१६	३०	कांगथोंग गांव
२.	आई एच एम, शिलांग (जत्या २) डी आर पासा	७००	२२७ जनवरी से ०२ मा २२०२३	०८	१३	२१	लाईतलुम गांव



Chairman  
IHMCTAN  
Shillong




Principal  
IHMCTAN  
Shillong


उद्यमी कर्मसूची

होटल प्रबंधन संस्थान, शिलांग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान  
उद्यमी प्रशिक्षण कर्मसूची का ब्यौरा  
(पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित) अनुसूची ८

क्र. सं.	प्रशिक्षण कर्मसूची	कुल घंटों की संख्या	अवधि	प्रशिक्षण प्रार्थी की संख्या				प्रशिक्षण प्रार्थी की संख्या
				रसोईया	बेटर	बैकर	गृह (हाउसकीपिंग) व्यवस्था	
१.	आई एच एम, शिलांग (जल्था १) डी आर पासा	700	१९ <sup>th</sup> 27 th July 2023 – 8 th November 2023	-	-	-	-	30
२.	आई एच एम, शिलांग (जल्था २) डी आर पासा	240	25th September 2023 – 28th October 2023 IHM, Shillong	-	-	-	-	30
३.			कुल					60



Chairman  
IHMCTAN  
Shillong



Principal  
IHMCTAN  
Shillong

**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E



IInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001  
amitca@gmail.com  
☎:2226095(O)94361-03734(M)

**स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन का प्रबंधन, मावडियांग-डियांग। शिलांग  
793018: मेघालय

**राय**

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन :: मावडियांग-डियांग:: शिलांग-  
793018:: मेघालय के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट और आय और व्यय  
खाता और रसीदें शामिल हैं। उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए भुगतान खाता, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के  
सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर नोट्स

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 तक इकाई की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य देते  
हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन  
का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। भारत सरकार (आईसीएआई), नीचे उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन।

**राय का आधार**

हमने अपना ऑडिट आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों (एसएएस) के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत  
हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में  
आगे वर्णित किया गया है। शिलांग में वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के  
अनुसार हम इकाई से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा  
किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के  
लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं



**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E



IInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001  
amitca@gmail.com  
☎:2226095(O)94361-03734(M)

**मुख्य लेखापरीक्षा मामले**

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

**मामलों पर जोर**

हम निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं

**1. अचल संपत्तियां:**

संस्थान ने वर्ष 2023-24 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। यह सलाह दी जाती है कि एक विस्तृत अचल संपत्ति रजिस्टर बनाए रखा जाए और अचल संपत्तियों के उचित भौतिक सत्यापन के साथ जल्द से जल्द अद्यतन किया जाए, जिसमें अप्रचलित/क्षतिग्रस्त संपत्तियों को खातों की पुस्तकों में लिखा जाना चाहिए।

ख. संस्थान की सभी अचल संपत्तियों को पर्याप्त बीमा के माध्यम से पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह सलाह दी जाती है कि संस्थान के भीतर सभी आईटी संसाधनों को उक्त संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित और वैध एएमसी के साथ कवर किया जाए।

**2. लेखा पुस्तकें और सहायक दस्तावेज/रिकॉर्ड:**

ए. हमने देखा है कि छात्रों द्वारा संस्थान के बैंक खाते में सीधे जमा किए जाने के मामलों में, अक्सर ऐसी रसीदों के विवरण प्रस्तुत करने में देरी होती है। इसके अलावा ऐसे मामले भी हैं जहाँ फीस पूर्व-निर्धारित बैंक खाते में जमा नहीं की गई है। इसके मासिक मिलान की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए। साथ ही, फीस संग्रह के लिए बिल बुक जारी करने की निगरानी के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखा जाना चाहिए।

ख. जर्नल वाउचर फाइलें अलग से रखी जानी चाहिए।

ग. विविध व्यय 14,71,40,904.95 रुपये है और जैसा कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया गया है, वास्तव में पिछले वर्षों में संचित घाटे को दर्शाता है और यह बैलेंस शीट के एसेट पक्ष के अंतर्गत दिखाई देता है। प्रबंधन द्वारा इसे "आरक्षित और अधिशेष" अनुसूची के अंतर्गत स्थानांतरित करने और शामिल करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।





**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎:2226095(O)94361-03734(M)

घ. जहां तक व्यय और अनुदान की पूंजी और राजस्व मदों के बीच अंतर करने का सवाल है, संस्थान द्वारा बनाए गए खातों/वाउचरों की पुस्तकों में काफी सुधार की आवश्यकता है।

संस्थान को अचल संपत्तियों की खरीद और रिकॉर्डिंग, कच्चे माल की खरीद, जनशक्ति आपूर्ति और अन्य तथा शुल्क संग्रह के संबंध में अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करना चाहिए।

(च) कॉशन मनी और सिक्क्योरिटी डिपॉजिट के संबंध में, यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि मौजूदा देयता की सीमा का पता लगाने के लिए एक समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए और किसी भी अधिकता/कमी को जल्द से जल्द खातों की पुस्तकों में समायोजित किया जाना चाहिए।

ज. मैनुअल वाउचर फाइलों और तैयार किए गए बिलों में सही लेखा शीर्षों को शामिल किया जाना चाहिए। एक ही बिल के माध्यम से कई लेजर शीर्षों के प्रभावित होने की स्थिति में, ऐसे सभी लेजरों का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और व्यय की बुकिंग तदनुसार की जानी चाहिए। सभी प्रविष्टियों के लिए उचित विवरण अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए।

झ. वित्तीय वर्ष के दौरान आईटीटीएम को दिए गए कमरों का किराया बिल्कुल भी बुक नहीं किया गया है और इसलिए, किराये की आय उस सीमा तक कम बताई गई है। इसके अलावा, बीएसएनएल से प्राप्त किराये की आय केवल ग्यारह महीनों के लिए प्राप्त और हिसाब की गई है।

झ.1. संस्थान के वास्तविक परिणामों की नियमित अंतराल पर बजट के साथ तुलना करने की प्रक्रिया होनी चाहिए तथा विचलनों को दूर किया जाना चाहिए।

झ.2. उपयोगी सुविधाओं के साथ अद्यतन सॉफ्टवेयर का लाभ प्राप्त करने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करण में अपग्रेड करने का सुझाव दिया जाता है, जिससे बेहतर आंतरिक नियंत्रण और बेहतर प्रदर्शन प्राप्त होता है।

ट. यह सुझाव दिया जाता है कि संस्थान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उजागर किए गए प्रतिकूल बिंदुओं/टिप्पणियों/सुझावों के साथ-साथ पिछले वर्षों की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करे।

3. जीपीएफ और एनपीएस में अंशदान के संबंध में नीतियां, इन्हें नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही, इन्हें नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए।

**4. इन्वेंटरी नियंत्रण:**

**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA. Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).  
FRN 0325831EIInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001  
amitca@gmail.com  
☎: 2226095(O) 94361-03734(M)

भंडारपाल द्वारा सामान्य परिसर, छात्रावास और रसोईघर में कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों और अन्य वस्तुओं के आवंटन की नियमित निगरानी के लिए एक स्टॉक निरीक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिए।

ख. स्टॉक का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और क्षतिग्रस्त/अप्रचलित वस्तुओं के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए।

**5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान:**

क. इग्नू, जेईई और एनसीएचएमसीटी की ओर से की जाने वाली गतिविधियों के लेन-देन के संबंध में खातों का अलग सेट बनाए रखा जाना चाहिए, जिसमें किए गए व्यय या प्राप्त प्रत्यक्ष प्राप्तियों, यदि कोई हो, का उचित विभाजन दिया जाना चाहिए।

कॉर्पस फंड, एंडोमेंट फंड, पेंशन एवं ग्रेच्युटी तथा प्रोविडेंट फंड पर प्राप्त ब्याज को प्रावधान के रूप में दर्ज किया गया है, जो मूलतः एक आय है।

6. चूंकि 31 मार्च, 2024 तक प्राप्त होने वाली फीस संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए आय और व्यय खाते में निर्दिष्ट फीस राशि और साथ ही संस्थान की चालू परिसंपत्तियों को उस सीमा तक कम करके दिखाया गया है।

**7. कराधान:**

क. लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान, संस्थान ने सुरक्षा शुल्क, ठेकेदारों, व्यावसायिक शुल्क आदि के लिए किए गए भुगतानों के संबंध में टीडीएस की वैधानिक आवश्यकताओं का समान रूप से अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा, जहां भी लागू हो, टीडीएस की गैर-कटौती/कम कटौती के लिए धारा 197 के तहत कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।

ख. नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि संगठन, जीएसटी के तहत पंजीकृत होने के बावजूद जीएसटी के प्रावधानों का समान रूप से अनुपालन नहीं कर रहा है। चूंकि जीएसटी आवश्यकताओं के संबंध में विस्तृत रिकॉर्ड नहीं बनाए गए हैं, इसलिए खाता पुस्तकों के साथ जीएसटी शेष राशि का उचित मिलान नहीं किया जा सका।

संस्थान के अभिलेखों के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर और लागू सीमा तक कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता रहा है। हालांकि, सामान्य भविष्य निधि के लिए कोई समाधान कार्य नहीं हो पाया, इसलिए हम 31.03.2024 तक GPF और ग्रेच्युटी के प्रति संगठन की वास्तविक देयता की स्थिति पर भौतिक प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।





**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).  
FRN 0325831EIInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎: 2226095(O)94361-03734(M)

घ. हम इस बात पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि खाते में अवैतनिक सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

ई. देय टीडीएस का प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान किए गए भुगतानों के साथ समायोजित नहीं किया गया है। इसका समाधान किया जाना चाहिए और फिर शेष.

**8. असमाधान मुद्दे:**

क. अनुसूची 7 में कुछ मदों के प्रारंभिक शेष का समाधान नहीं हुआ है।

(जैसे अन्य के लिए विविध लेनदार, सीबीएसपी) जो वर्ष के लिए भुगतान नहीं किए गए हैं और लंबे समय से सुलह की प्रक्रिया अनिश्चित बनी हुई है इस तरह की गतिविधियों पर उचित जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। उचित मंजूरी और अनुमोदन के साथ अग्रिम लंबे समय से लंबित देय/प्राप्तियों के मामले में, खातों की पुस्तकों में समाधान और समायोजन के लिए तीसरे पक्ष की पुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि कई चालू बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**9. सामान्य:**

क. कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की विधि के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाना चाहिए तथा बायोमेट्रिक मशीन स्थापित की जा सकती है।

ख. कुछ बैंक खातों में बचत बैंक खाते में बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है। संस्थान अधिशेष राशि को कुछ अल्पकालिक/मध्यम अवधि जमा में निवेश कर सकता है, जिनकी तत्काल जरूरत नहीं है।

अनुसूची 3 में, सावधि जमा के संबंध में निवेश, ब्याज को समान रूप से अर्जित और दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वर्ष के अंत तक सावधि जमा के शेष के संबंध में बैंक पुष्टि नहीं की गई है।

(घ) एनईसी परियोजना, कटहल मिशन परियोजना और एनएसएस के वित्तीय लेन-देन, जिनमें अलग-अलग बैंक खाते बनाए गए हैं, को संलग्न वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

संस्थान अधिकाधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अल्पकालिक पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं आदि को शामिल करने पर विचार कर सकता है, जिससे वह स्वयं को आत्मनिर्भर मॉडल के तहत स्थापित कर सके और घाटे के चक्र से उबर सके।





**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA. Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E



IInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,

Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎: 2226095(O)94361-03734(M)

**वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां**

प्रबंधन उपर्युक्त लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है जिसे प्रबंधन आवश्यक मानता है ताकि वित्तीय विवरणों को तैयार करना संभव हो सके जो कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हों:

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन इकाई की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन इकाई को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

शासन के प्रभारी व्यक्ति इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं

**वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं

हम भी:

\* वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करें और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।



**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA. Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎ : 2226095(O)94361-03734(M)

\*लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन इकाई के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

\*प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

लेखांकन के चालू चिंता आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो इकाई की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण इकाई चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

अमित ओपी शर्मा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
के लिए हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के  
संदर्भ में FRN: 325831E

स्थान: शिलांग

तारीख: 13.09.2024

UDIN: 240634638KBLPG7277



Amit Sharma

(सीए. अमित शर्मा)

स्वामित्व

सदस्यता संख्या 063463

12) सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 का कार्यालय

क) सीएपीआईओ कि विवरण एवं सीपीआईओ अपीलीय ऑथरिटी, साएपीआईओ का सहायक जन सूचना अधिकारी-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष सं.		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमटी बालाविन्ता ग्वारसिंग	प्राचार्य		60330 96587	-----	इस क्षेत्र में फैक्स सुविधा उपलब्ध नहीं है।	ihmctan.shillong@gmail.com	होटल मैनेजमेंट कैंटरिंग टेकनॉलजी एवं एप्लाइड निउट्रि सन माउकासियांग माउडियांडियांग शिलांग


जन सूचना अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष सं.		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमटी बालाविन्ता ग्वारसिंग	प्राचार्य		60330 96588	-----	इस क्षेत्र में फैक्स सुविधा उपलब्ध नहीं है।	ihmctan.shillong@gmail.com	होटल मैनेजमेंट कैंटरिंग टेकनॉलजी एवं एप्लाइड निउट्रि सन माउकासियांग माउडियांडियांग शिलांग

अपीलीय ऑथरिटी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष सं.		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डॉ. विजय कुमार डी.	आयुक्त और सचिव पर्यटन विभाग मेघालय सरकार अध्यक्ष आईएचएम शिलांग	0364	2226043	-----	-----	vijaymeghalaya@gmail.com	मुख्य सचिवालय भवन

  
Chairman  
IHMCTAN  
Shillong


  
Principal  
IHMCTAN  
Shillong

31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

कोष पूँजीनिधि एवं देनदारियाँ	अनुसूची	राशि (रु.)	राशि (रु.)
		वर्तमान वर्ष (2023-24)	पूर्व वर्ष (2022-23)
आरक्षित एवं अतिरिक्त	1	1744322.43	1692959.43
चिन्हित / अक्षय निधि	2	1156076.32	1156076.32
निरापद कर्ज एवं उधार	3	716596085.16	588630194.16
कोष पूँजीनिधि	4	0.00	0.00
असुरक्षित कर्ज एवं उधार	5	0.00	0.00
विलम्बित देनदारिया	6	0.00	0.00
चालू देनदारिया एवं प्रावधान	7	21134153.00	20308698.20
		<b>740630636.91</b>	<b>611787928.11</b>
<b>परिसम्पत्तियाँ</b>			
अचल संपत्तियाँ	8	533610115.10	444292520.10
चिन्हित अक्षय निधि से निवेश	9	36438262.00	44158678.00
अन्य निवेश	10	0.00	0.00
चालू परिसंपत्तिया ऋण एवं अग्रिम	11	23441354.86	16690577.79
विविध खर्च		147140904.95	106646152.22
		<b>740630636.91</b>	<b>611787928.11</b>
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली	24		
अनिश्चित देनदारियां एवं लेखा पर टिप्पणी	25		

Place : Shillong  
Date : 13-09-2024  
UDIN : 24063463BKBLGP7277

  
Chairman  
IHMCTAN  
Shillong

  
Principal  
IHMCTAN  
Shillong



In terms of our report of even date  
for Amit O P Sharma & Co.  
Chartered Accountants

  
(Amit Sharma)  
Proprietor  
M No 063463


31 मार्च 2024 के आय व्यय का हिसाब

		राशि (रु.)	राशि (रु.)
आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
विक्रय एवं सेवा से आय	12	16182614.54	9036195.80
अनुदान एवं सहायकी	13	31116042.59	35013127.00
शूल्क सम्पत्ति राशि	14	38212530.00	42192084.00
निवेश से आय	15	0.00	0.00
व्याज से आय	16	0.00	0.00
अन्य आय	17	2757706.00	514945.00
कार्य संचालन में तैयार सामग्री	18	7944654.28	609414.28
	19	0.00	0.00
<b>कूल (क)</b>		<b>96213547.41</b>	<b>87365766.08</b>
<b>खर्च</b>			
संस्थापना खर्च	20	52743387.00	56324848.00
अन्य प्रशासनिक खर्च ईत्यादी	21	41211021.14	21641137.60
अनुदान एवं सहायक पर खर्च	22	0.00	0.00
व्याज	23	0.00	0.00
मूल्यहास (अनुसूची 8 में वर्षान्त में कूल मूल्य हास)	8	42753892.00	47592359.00
<b>कूल (ख)</b>		<b>136708300.14</b>	<b>125558344.60</b>
खर्च के ऊपर आय (क-ख)		(40494752.73)	(38192578.52)
विशेष आरक्षण पर हस्तान्तरण:		0.00	0.00
साधारण आरक्षण से / प्रति हस्तान्तरण		0.00	0.00
<b>कमियों को विविध खर्च में स्थानान्तरण</b>		<b>(40494752.73)</b>	<b>(38192578.52)</b>
विशेष लेखा प्रणालिया अनिश्चित देनदारिया एवं लेखा पर टिप्पणी	24		
अनिश्चित देनदारिया एवं लेखा पर टिप्पणी	25		

In terms of our report of even date  
for Amit O P Sharma & Co.  
Chartered Accountants

Place : Shillong  
Date : 13-09-2024  
UDIN : 24063463BKBLGP7277

  
Chairman  
IHMCTAN  
Shillong

  
Principal  
IHMCTAN  
Shillong




  
(Amit Sharma)  
Proprietor  
M No 063463



31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

अनुसूची 1 पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष 2023-24		पूर्व वर्ष 2022.23	
	वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	1692959.43		1692957.43
जोड़ पूंजी निधि में अनुदान	51363.00		2.00	
वियोग विविध खर्च से स्थानान्तरण	0.00		0.00	
जोड़ आय एवं व्यय खाते से अतिरिक्त	0.00		0.00	
शुद्ध आय का शेष	0.00	1744322.43	0.00	1692959.43
शेष		<b>1744322.43</b>		<b>1692959.43</b>

अनुसूची 2 आरक्षित एवं अतिरिक्त	वर्तमान वर्ष 2023-24		पूर्व वर्ष 2022.23	
	1. पूंजी आरक्षण : पिछला खाते अनुसार			
वर्ष के दौरान जोड़				
वियोग वर्ष के दौरान काटे गए	0.00		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00
2. पूनर्निर्धारण आरक्षण				
पिछला खाते अनुसार				
वर्ष के दौरान जोड़	0.00		0.00	
वियोग वर्ष के दौरान काटे गए	0.00		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00
3. विशेष आरक्षण				
पिछला खाते अनुसार				
वर्ष के दौरान जोड़	0.00		0.00	
वियोग वर्ष के दौरान काटे गए	0.00		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00
4. सामान्य आरक्षण				
पिछला खाते अनुसार	1156076.32		1156076.32	
वर्ष के दौरान जोड़ वियोग	0.00		0.00	
वर्ष के दौरान काटे गए	0.00	1156076.32	0.00	1156076.32
		<b>1156076.32</b>		<b>1156076.32</b>



31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

अनुसूची 3 चिन्हित अक्षय निधि	वर्ष 2023-24		कुल राशि-रु.	
	पूजा निर्माण हेतु खर्च	अनुदान पर सूद	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
(क) निधि का प्रारम्भिक राशि	0.00	0.00	582116397.74	631157552.74
(ख) निधि में जोड़				
(i) दान अनुदान पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार	127957422.00	0.00	127957422.00	16066256.00
(ii) निधि के निवेश से आय	0.00	0.00	3588115.00	3588115.00
(iii) अन्य जोड़ (बैंक व्याज)	0.00	8469.00	2934150.42	2925681.42
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>127957422.00</b>	<b>8469.00</b>	<b>716596085.16</b>	<b>653737605.16</b>
(ग) निधि के अनुसार इस्तेमाल या खर्च				
(1) पूंजी खर्च				
स्थायी परिसम्पत्तिया				
अन्य				
कुल				
(ii) राजस्व खर्च	0.00	0.00	0.00	0.00
वेतन, रोजी एवं भत्ता	0.00	0.00	0.00	65107411.00
भाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्च	0.00	0.00	0.00	0.00
(III) पूर्व कालिन सामंजस्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	65107411.00
<b>कुल (ग)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65107411.00</b>
<b>वर्ष के अंत में शेष अतिशेष (क + ख+ग)</b>	<b>127957422.00</b>	<b>8469.00</b>	<b>716596085.16</b>	<b>588630194.16</b>



31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार:	वर्तमान वर्ष 2023-24		पूर्व वर्ष 2022.23	
	1 केन्द्र सरकार			
2 राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		0.00		0.00
3 वित्तीय संस्थाएँ		0.00		0.00
(ए) सावधि ऋण				
(बी) अर्जित और देय ब्याज	0.00		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00
4 बैंक:	0.00		0.00	
(ए) सावधि ऋण अर्जित और देय ब्याज	0.00		0.00	
(बी) अन्य ऋण:	0.00		0.00	
ओवरड्राफ्ट (बीओबी खाता संख्या 0187) अर्जित और देय ब्याज	0.00		0.00	
कम: चुकाया गया	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
5 अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		0.00		0.00
6 डिबेंचर और बांड		0.00		0.00
7 अन्य		0.00		0.00
कुल		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>





## 31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

अनुसूची - 5 असुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
1. भारत सरकार	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (विवरण)	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00
4. बैंक		
(a) स्थायी समय ऋण	0.00	0.00
(b) व्याज उपज	0.00	0.00
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसी		
6. डिवेनचर्स एवं वॉन्ड	0.00	0.00
7. स्थायी जमा	0.00	0.00
8. अन्य (हण हूनर से रोजगार तक) - कम चुकाया	0.00	0.00
कुल	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

अनुसूची - 6 बिलम्बित देनदारिया	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
(a) निधि सामान एवं अन्य परिसम्पत्तियों का बंधक से अनुमोदन प्राप्त	0.00	0.00
(b) अन्य	0.00	0.00
कुल	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

अनुसूची 7 चालू देयताय एवं प्रावधान	वर्तमान वर्ष 2023-24		पूर्व वर्ष 2022.23	
	क. चालू देनदारिया			
1. अनुमोदन		0.00		0.00
2. भरोसेमंद उधार				
क) विविध पापक मेर्सिस टेस्ट	184612.00		0.00	
ख) अन्य :-	0.00		9542.00	
3. अग्रिम प्राप्त	0.00		72895.00	
4. विधिवद्ध देय	1051424.00		1133203.00	
क) देय अतिवाहित	0.00		225817.00	
अन्य	366512.00		189685.00	
	15000.00	1617548.00	15000.00	1646142.00
5. अन्य चालू देन	0.00		0.00	0.00
क) छात्रो से जमा				
(i) कॉलेज जमानत शुल्क	0.00		0.00	
(ii) छात्रावास जमानत शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) सुरक्षा जमानत शुल्क				
ख) अन्य से जमा	6099035.00		5732535.00	
	0.00		0.00	
(1) वयाना, निरापत जमा	2012884.00		2031884.00	
उद्धव में काट कर का देय				
पेशेवर शुल्क देय	465556.00		385556.00	
सिविएमपि	809000.00		854000.00	
इंमू शुल्क देय	0.00		0.00	
एनसिएचएम शुल्क देय	14720.00		14720.00	
भ्रमण भत्ता वकाया परिपोद	94151.00		94151.00	
कर्मचारी वेतन में टि डि एम	1945166.00		1945166.00	
लेखा परिक्षा शुल्क देय	0.00		0.00	
कर एवं शुल्क (जी एस टी वकाया)	22083.00		0.00	
कर एवं शुल्क (जी एस टी वकाया)	80000.00		40000.00	
पजेवर शुल्क देय	254306.00		464180.20	
	55546.00	11852447.00	3446.00	11565638.20
कुल-क		13469995.00		13211780.20




ख. प्रावधान				
1. कर हेतू	0.00		0.00	
2. आनूतोपीक	0.00		0.00	
3. विदाई पेंशन	0.00		0.00	
4. जाड़ी का नकदीकरण	0.00		0.00	
5. पेंशन निधि	0.00		216000.00	
6. पेंशन (विजय कुमार) Pension Contribution (Vijay Kumar)	0.00		90561.00	
7. जिपिएफ सिपिएफ (व्याज समेत)	7664158.00	7664158.00	6790357.00	7096918.00
<b>कुल-क</b>		7664158.00		7096918.00
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>21134153.00</b>		<b>20308698.20</b>



31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

DESCRIPTION	अनुसूची-8 फिक्स धन						DEPRECIATION			NET BLOCK	
	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK			As at the Beginning of the year	Additions during the Year	Deductions during the year	Total up to the year-end	As at the current year-end 31.03.2024	As at the previous year-end 31.03.2023	
		Cost/Valuation As at beginning of the year 01.04.2023	Additions During the Year	Deductions during the Year							Cost /Valuation As at the Year-end
भूमि											
अ) फ्रीहोल्ड	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ब) पट्टाधृत	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ग) भूमि/साइट विकास	0%	29881000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29881000.00	29881000.00	
भारत:											
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	126283153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6047186.00	0.00	54424673.00	60471859.00	
ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
सी) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	10%	6249067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156716.00	0.00	1410440.16	1567156.16	
घ) भूमि पर अधिसंचनाएं जो कि संबंधित नहीं हैं	10%	36588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	8370.69	9300.69	
इ) माकडाक में कैफेटेरिया	10%	7151000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113930.00	0.00	1025372.30	1139302.30	
फ) चारदीवारी	10%	3840000.00	960000.00	0.00	0.00	0.00	315624.00	0.00	3320616.00	2676240.00	
ड) वर्षा जल संचयन	10%	374976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33216.00	0.00	298947.00	332163.00	
एच) जेनेरेटर शेड	15%	432297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35840.00	0.00	203096.00	238936.00	
1) एफ एंड बी प्रयोगशाला	10%	43982300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3958407.00	0.00	35625663.00	39584070.00	
जे) शिक्षकों के आवास के लिए छात्रावास का निर्माण											
क) आईएचएम अनुस्यूक्त प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण	10%	49349400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4441446.00	0.00	39973014.00	44414460.00	
ल) मावडियांगडियांग में नई बिल्डिंग परियोजना											
एम) खेल के मैदान को समतल करने के लिए	10%	210800038.00	122262.00	0.00	0.00	0.00	18984229.00	0.00	170858067.00	189720034.00	
हाइड्रोलिक उखनन											
न) नये परिसर में प्लेटफार्म का निर्माण	10%	105400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9486.00	0.00	85374.00	94860.00	
ओ) इन्सुलेशन सेंटर का निर्माण	10%	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6750.00	0.00	60750.00	67500.00	
पी) बिल्डिंग शेड	10%	249800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22482.00	0.00	202338.00	224820.00	
यत्र एवं मशीनरी एवं उपकरण:	10%	246000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22140.00	0.00	199260.00	221400.00	
१) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण											
ब) रसोई उपकरण.	15%	28681126.96	849850.00	0.00	0.00	0.00	1901119.00	0.00	10999534.28	12050803.28	
सी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	15%	29603539.00	2099692.00	0.00	0.00	0.00	1694732.00	0.00	10452783.54	10047823.54	
द) कम्पोस्ट मशीन	15%	3892000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390161.00	0.00	2210911.00	2601072.00	
३) जैक फ्रूट मिशन उपकरण	15%	161280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12628.00	0.00	71561.00	84189.00	
गहनों	15%	245145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28912.00	0.00	163833.00	192745.00	
नीचे, फिक्सचर और साज-सज्जा	15%	2101430.48	0.00	0.00	0.00	0.00	70131.00	0.00	397411.69	467542.69	
पीपलिय उपकरण	10%	55289065.68	882779.00	0.00	0.00	0.00	2715950.00	0.00	24794573.07	26627744.07	
प्यूटर सहायक उपकरण	15%	2991989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	204247.00	0.00	1157401.24	1361648.24	
	40%	10204782.40	138827.00	0.00	0.00	0.00	1089956.00	0.00	1704349.52	2655478.52	





THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG - 793018 :: MEGHALAYA

वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़ोतरी पर कुल मूल्य ह्रास

अचल संपत्तियां	Addition		Rate of Depreciation	Depreciation		
	Before 30th September	After 30th September		At Full Rate	At Half Rate	Total Amount of Depreciation (Rs)
जल छाजन	0.00	960000.00	10%	0.00	48000.00	48000.00
मावडियांगडियांग में नई बिल्डिंग	122262.00	0.00	10%	12226.00	0.00	12226.00
परियोजना	180740.00	702039.00	10%	18074.00	35102.00	53176.00
फर्नीचर, फिक्सचर और साज-सज्जा	396800.00	453050.00	15%	59520.00	33979.00	93499.00
विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण:						
रसोई की सामग्री:	401079.00	1698613.00	15%	60162.00	127396.00	187558.00
चल दूरभाष:	0.00	23000.00	15%	0.00	1725.00	1725.00
कंप्यूटर सहायक उपकरण	0.00	138827.00	40%	0.00	27765.00	27765.00
पुस्तकालय की पुस्तकें:	563798.00	163262.00	60%	338279.00	48979.00	387258.00
वर्ष के दौरान कुल परिवर्धन पर कुल मूल्यह्रास वर्ष के दौरान कुल परिवर्धन						<b>811207.00</b>
						<b>5803470.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग


अनुसूची 9- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
1 सरकारी प्रतिभूतियों में		
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
3 शेयर	0.00	0.00
4 डिबेंचर और बांड	0.00	0.00
5 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00
6 अन्य: -	0.00	0.00
बैंकों में सावधि जमा में शेष राशि-	0.00	0.00
a. बैंक ऑफ बड़ौदा, मावदियांग दियांग शाखा- आगे लाया गया	44158678.00	53022252.00
जोड़ें:- वर्ष के दौरान निवेशित राशि	38376173.00	79819908.00
कम:- वर्ष के दौरान परिपक्व	46096589.00	88683482.00
जमा शेष	36438262.00	44158678.00
ख. आईसीआईसीआई बैंक के साथ आवर्ती जमा आगे लाया गया	0.00	8500000.00
जोड़ें:- वर्ष के दौरान निवेशित राशि (ब्याज सहित)	0.00	3500000.00
कम:- वर्ष के दौरान परिपक्व	0.00	12000000.00
जमा शेष	-	0.00
कुल	<b>36438262.00</b>	<b>44158678.00</b>
अनुसूची 10-निवेश अन्य	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
3 शेयर	0.00	0.00
4 डिबेंचर और बांड	0.00	0.00
5 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00
6 अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	0.00	0.00
कुल	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG - 793018 :: MEGHALAYA

31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग


अनुसूची-11 वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम, आदि अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्ति, ऋण और आग	वर्तमान वर्ष 2023-24		पूर्व वर्ष 2022.23	
	क. चालू सम्पत्तिया निःशुल्क	0.00 0.00		0.00 0.00
क) भण्डार अतिरिक्त बी) खुला माला ग) व्यापार में भण्डार	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
तैयार सामान कार्य चलमान कच्चा सामान	0.00 1888539.00	1888539.00	0.00 0.00	0.00
2 विविध उधार क) छ महीने से ज्यादा बकाया उधार ख) अन्य		0.00		0.00
3 हाथ नकदी (चेक ड्राफ्ट और आकस्मिक) 4 बैंक शेष (३) अनुसूचीत बैंक पर	0.00		0.00	
1) चालू खाता बमा खाता बचत खाता	3092924.09 1816550.00 (23695.70)		3481491.09 396239.00 160419.00	
I बीओबी खाता संख्या 6462 (नया सामान्य खाता) बीओबी खाता संख्या 9553 (चेतावनी खाता 1 बी बीओबी आर्क नं 6367 (नया छात्रावास खाता) 4 बीयूबी खाता संख्या 6-179 (नया भविष्य निधि खाता 5 बीओबी खाता संख्या 9554 (पेंशन एवं ग्रेच्युटी खाता) बीओबी खाता संख्या 7469 (नया भवन खाता) आईसीआईसीटी खाता संख्या 0087 (पेंशन और ग्रेच्युटी खाता)	1774076.69 4847519.00 270399.40 270231.57 175009.95 1170689.37 1744322.43 20355.00 0.00	15158381.80	1167148.10 756611.00 261930.40 661112.60 1858089.95 255653.16 1692959.43 19754.00 621716.00	11333123.73
(b) अनुसूचीत नहीं हुआ बैंक पर चालू खाता मामा खाता बचत खाता	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
5. डाकघर बचत खाता		0.00		0.00
<b>कुल-क</b>		<b>17046920.80</b>		<b>11333123.73</b>





**THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA  
31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग**

अनुसूची 11- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष 2023-24		पूर्व वर्ष 2022.23	
	बी.ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां:			
1. ऋण				
(क) स्टाफ	0.00		0.00	
(ख) अन्य संस्थाएं जो संस्था के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न हैं				
(सी) अन्य निर्दिष्ट करें	0.00		0.00	
आईएचएम-एचएसआरटी खाता				
आईएचएम प्रशिक्षण केंद्र खाता	2803560.00		3308560.00	
2. अग्रिम राशि और नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अन्य राशियाँ	10000.00	2813560.00	10000.00	3318560.00
(ए) पूंजी खाते पर				
(बी) पूर्व भुगतान वीर पॉलिमर्स	0.00		0.00	
(ग) अन्य:				
जेईई एडवांस	0.00		0.00	
अशोक कुमार				
महोत्सव अग्रिम	0.00		25000.00	
	0.00		0.00	
जीपीएफ अग्रिम				
एन पिन्गोप				
एस मकदोह	30000.00		90000.00	
डब्लू. खोंगवार	178798.00		218116.00	
	105000.00		165000.00	
छात्र गतिविधि अग्रिम				
बागियो पाक्यंतेन				
Prasant Singh Chand Student	0.00		3000.00	
सेलो और एन. लिंगदोह	0.00		3000.00	
एस. खोंगला	0.00		4500.00	
एलटीसी एडवांस	0.00		15000.00	
विवेक कुमार	0.00		13500.00	
एन पिन्गोप	5400.00		0.00	



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

मेडिकल एडवांस	0.00		0.00	
यात्रा अग्रिम	0.00		20000.00	
आर्मेडालिन	0.00		20000.00	
स्टेसी वाह्वांग	0.00		20000.00	
विवेक कुमार	0.00		0.00	
Vijay Kumar				
कार्यशाला/कार्यक्रम	0.00		20000.00	
DRS Passah				
प्रशिक्षण अग्रिम	25200.00		0.00	
लिंडा कोनघाट				
परिचालन व्यय	15000.00		12000.00	
मोहन चंद्र	10000.00		0.00	
आर.के. चटर्जी	22083.00		0.00	
Vijay Kumar	105595.00		0.00	
स्वच्छता कार्य योजना प्राप्य		497076.00		629116.00
3. अर्जित आय				
(क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	0.00		0.00	
(ख) निवेश पर-अन्य	0.00		0.00	
(ग) ऋण और अग्रिम भुगतान पर	0.00		0.00	
(घ) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
4. प्राप्य दावे				
(ए) प्राप्य टीडीएस	624237.00		164607.00	
(बी) जमा राशि (टेलीफोन, पट्टा किराया, आदि)	-800.00		-800.00	
(ग) इन्फो पारिश्रमिक	0.00		0.00	
(घ) आईएचएमसीटीएन प्रशिक्षण केंद्र	297016.00		297016.00	
(ई) जीएसटी प्राप्य	2162710.06		948320.06	
(च) अन्य	635.00	3083798.06	635.00	1409778.06
कुल ख		6394434.06		5357454.06
कुल क एवं ख		23441354.86		16690577.79



31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23
अनुसूची 12-बिक्री/सेवाओं से आय		
1 बिक्री से आय		
2 सेवाओं से आय	0.00	0.00
(क) तैयार माल की बिक्री	0.00	0.00
(बी) कच्चे माल की बिक्री	0.00	25000.00
(ग) स्क्रेप की बिक्री	0.00	0.00
(घ) ब्रोशर/जर्नल/कूपन की बिक्री	43215.00	27000.00
(ई) लॉग बुक की बिक्री	118900.00	293205.00
(1) टूल किट की बिक्री	1907662.56	1178506.00
(छ) खाद्य वस्तुओं की बिक्री (एटीसी)	117957.24	585889.00
(ज) खाद्य पदार्थों की बिक्री	256590.00	0.00
(i) खाद्य पदार्थों की बिक्री (छात्रावास)		
(ए) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क		
(बी) व्यावसायिक/परामर्श सेवाएं	0.00	0.00
(सी) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	0.00	0.00
(घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	0.00	0.00
(ई) अन्य:-	0.00	0.00
दोपहर के भोजन के शुल्क की वसूली	233000.00	224000.00
विज्ञापन पुनर्प्राप्ति	169491.52	0.00
आउटडोर खानपान	2037808.00	425530.00
फ्रेंच कक्षा (छात्र विकास)	0.00	50000.00
कार्यशाला, सेमिनार और कार्यक्रम	3602496.50	1137736.00
दोपहर भोजन	0.00	50000.00
आवास शुल्क	449411.00	275743.00
कमरे का किराया (एटीसी)	7246082.72	4763586.80
<b>कुल</b>	<b>16182614.54</b>	<b>9036195.80</b>


	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23
अनुसूची 13-अनुदान/सब्सिडी (अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)		
1 केन्द्र सरकार:		
2 राज्य सरकार:		
पर्यटन मंत्रालय-आवर्ती	0.00	25941000.00
पर्यटन मंत्रालय-एसएपी	0.00	177480.00
डीओईपी (एनईएफएस)	0.00	885000.00
सीमा क्षेत्र विकास	0.00	3740002.00
डीओएफपी (बकव्हीट प्रोग)	0.00	3517745.00
एनईसी (सीसीवी)	0.00	751900.00
डीओटी (पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम)	1995000.00	0.00
मेघालय किसान आयोग	753784.00	0.00
प्राइम हब-मेघालय बेसिन प्रबंधन एजेंसी	8286597.00	0.00
NEIGRIHMS गेस्ट हाउस	20080661.59	0.00
3 Kendriya Hindi Sikshan Mantralaya	0.00	0.00
4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>31116042.59</b>	<b>35013127.00</b>



31 मार्च 2024 के तुलन पत्र का अनुसूची अंग

अनुसूची 14-शुल्क/सदस्यता	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	2023-24	2022.23
1 प्रवेश शुल्क	0.00	0.00
2 वार्षिक शुल्क/सदस्यता	0.00	0.00
3 सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	0.00	0.00
4 परामर्श शुल्क	0.00	0.00
5 अन्य:-	0.00	0.00
वर्ष के दौरान शैक्षणिक प्राप्तियां-		
क. प्रवेश शुल्क	239600.00	217500.00
बी. परीक्षा शुल्क और पुनः उपस्थिति शुल्क	1598700.00	1693850.00
सी. जुर्माना और विलंब शुल्क	46360.00	0.00
द. संस्थागत स्थानीय शुल्क	0.00	0.00
ई. अन्य शुल्क (आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड जारी करना सहित)	15650.00	1600.00
च. ट्यूशन फीस	24147575.00	27385258.00
8. एनसीएचएमसीटी प्राप्तियां	57040.00	9298.00
ज. नामांकन शुल्क	319200.00	216900.00
i. विविध आय (फीस)	2891550.00	3282150.00
जे. मध्यावधि परीक्षा शुल्क	186000.00	156000.00
छात्रावास शुल्क	8112575.00	10292909.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम की रसीदें	0.00	0.00
इंगू प्राप्तियां, जेईई प्राप्तियां और अन्य संबद्ध राजस्व प्राप्तियां	870105.00	125000.00
घटाएँ:- फीस की वापसी	38484355.00	43380465.00
	271825.00	1188381.00
<b>कुल</b>	<b>38212530.00</b>	<b>42192084.00</b>

अनुसूची 15- निवेश से आय	निवेश		निवेश : अन्य	
	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
वर्तमान वर्ष 2022-23				
1 रुचि				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
बी) अन्य बांड/डिबेंचर				
2 लाभांश:				
क) शेयरों पर				
3 किराया				
ख) म्यूचुअल फंड सिक्क्योरिटीज पर				
4 अन्य(निर्दिष्ट करें)				
<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED  
NUTRITION MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA**

**31 मार्च 2024 के व्यय का तुलन पत्र अनुसूची अंग**

अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
	1 रॉयल्टी से आय	0.00
2 प्रकाशन से आय	0.00	0.00
3 अन्य	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

अनुसूची 17- अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
	1 सावधि जमा पर:	
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	2429696.00	259534.00
(बी) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00	0.00
(ग) संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
(घ) अन्य	0.00	0.00
2 बचत खातों पर	328010.00	255411.00
3 ऋण पर:	0.00	0.00
4 देनदारों और अन्य प्राप्त्य पर ब्याज	0.00	0.00
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00	0.00
(बी) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
(ग) संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
(घ) अन्य	0.00	0.00
(ए) कर्मचारी/स्टाफ (मोटर एडवांस पर)		
(बी) अन्य	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>2757706.00</b>	<b>514945.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

31 मार्च 2024 के व्यय का तुलन पत्र अनुसूची अंग

अनुसूची 18- अन्य आय 1 परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ (क) स्वामित्व वाली संपत्ति (ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां 2 निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ 3 विविध सेवाओं के लिए शुल्क 4 आस्थगित आय 5 अतिथि कक्ष 6 विविध रसीदें 7 लाइसेंस शुल्क 8 स्टाफ वेतन से अन्य राजस्व कटौती 9 पूर्व अवधि आइटम 10 निविदा शुल्क 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्तियां 12 इन हाउस फ़ैबलिटीज एनईसी 13 बीएसएनएल टावर लगाने का किराया 14 स्वैच कार्य योजना (एसएपी)	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
		0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	6592716.28	159716.28
	15840.00	15840.00
	157144.00	140308.00
	0.00	0.00
	9000.00	30500.00
	1025035.00	263050.00
	0.00	0.00
	28600.00	0.00
	116319.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>7944654.28</b>	<b>609414.28</b>

अनुसूची 19- तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/कमी (ए) समापन स्टॉक तैयार माल कार्य प्रगति पर (बी) घटाएँ: प्रारंभिक स्टॉक तैयार माल कार्य प्रगति पर	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
		0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>कुल वृद्धि/ह्रास क एवं ख</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	2023-24	2022-23
अनुसूची-20 स्थापना व्यय		
सामान्य स्थापना व्यय: -		
वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	19239403.00	19703297.00
वरिष्ठ सलाहकार को वेतन	1212888.00	300117.00
वेतन और मजदूरी (एटीसी)	402390.00	229030.00
वेतन और मजदूरी (एफएओ)	184166.00	0.00
पेंशन	1192063.00	3470024.00
भत्ते और बोनस:		
बच्चों की शिक्षा भत्ते	0.00	378000.00
कर्मचारियों को बोनस	117436.00	117436.00
डी ए बकाया	224508.00	227020.00
एमएसीपी बकाया	0.00	4536.00
अवकाश यात्रा रियायत (व्यय और नकदीकरण)	96229.00	217624.00
नकदीकरण छोड़ें	0.00	2671462.00
अतिथि संकाय, समन्वयक आदि को मानदेय	114950.00	91400.00
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	433657.00	469676.00
जनशक्ति आउटसोर्सिंग	14561444.00	13418023.00
सुरक्षा शुल्क	1920064.00	1866984.00
भुगतान की गई प्रेच्युटी	0.00	2000000.00
जीपीएफ भुगतान	0.00	1470726.00
	<b>39699198.00</b>	<b>46635355.00</b>
शैक्षणिक व्यय:-		
कैम्पस साक्षात्कार और भर्ती व्यय	110468.00	72621.00
एनसीएचएमसीटी को नामांकन शुल्क का भुगतान	307200.00	216900.00
परीक्षा शुल्क प्रेषण, पारिश्रमिक और अन्य परीक्षा व्यय	888040.00	970146.00
जेएनयू, इग्नू व्यय (मानदेय आदि सहित)	878490.00	0.00
पत्र एवं पत्रिकाएँ	0.00	0.00
छात्र गतिविधियाँ	0.00	0.00
कैरियर जागरूकता कार्यक्रम	554279.00	33315.00
सीमा क्षेत्र विकास	0.00	74418.00
संयुक्त प्रवेश परीक्षा व्यय (मानदेय आदि)	2872665.00	1017197.00
एनसीएचएमसीटी फीस प्रेषण व्यय कार्यशालाएं, सेमिनार और कार्यक्रम व्यय	5992559.00	2590730.00
घटाएँ: खाते पर प्राप्ति	0.00	0.00
	<b>5992559.00</b>	<b>2590730.00</b>
परिचालन व्यय:		
कैम्पस के लिए उपभोग्य वस्तुएं एवं कच्चा माल	1696635.00	3147160.00
छात्रावास के लिए उपभोग्य वस्तुएं एवं कच्चा माल	2058683.00	2342635.00
उपभोज्य कच्चे माल व्यय (एटीसी)	2367137.00	1041075.00
हाउसकीपिंग व्यय (एटीसी)	24717.00	125333.00
गृह व्यवस्था और बागवानी सामग्री	0.00	76745.00
आउटडोर खानपान शुल्क	904458.00	365815.00
घटाएँ: खाते पर प्राप्ति	7051630.00	7098763.00
	0.00	0.00
	<b>7051630.00</b>	<b>7098763.00</b>
<b>कुल</b>	<b>52743387.00</b>	<b>56324848.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

31 मार्च 2024 के आय-व्यय का तुलन पत्र अनुसूची अंग

अनुसूची 21-अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
बिजली और शक्ति		
बीमा		
मरम्मत और रखरखाव-	1466484.00	1019901.00
i) गैस बैंक, सिलेंडर और गैस रेंज	17061.00	19656.00
ii) कंप्यूटर और बाह्य उपकरण		
iii) फर्नीचर और फिक्सचर	318190.00	54975.00
iv) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	11948.00	106640.47
v) रसोई के सामान और उपकरण	1039286.00	456176.16
vi) भवन	193372.00	651799.00
vii) प्लंबिंग	141315.00	119665.00
viii) वाहन	390713.00	429649.88
ix) जेनेरेटर	42989.00	163392.84
x) छात्रावास	32696.00	75358.00
ix) सामान्य	101622.00	419420.00
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	0.00	0.00
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	263974.00	155375.00
यात्रा एवं परिवहन व्यय	273431.00	710516.24
स्वच्छता पखवाड़ा	3200.00	103786.00
स्वैच कार्य योजना व्यय	0.00	7145.00
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	152172.00	177480.00
व्यावसायिक एवं लेखा शुल्क	40000.00	40000.00
एनपीएस शुल्क	496760.00	0.00
एनपीएस अंशदान	4744.00	2152.00
विज्ञापन और प्रचार	1768744.00	2572021.00
प्रशिक्षण व्यय	65171.00	114310.60
परामर्श शुल्क	2145602.00	95012.00
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम	0.00	247800.00
प्राइम हब व्यय	8507.00	0.00
कपड़ा, वर्दी और लिनन	5537261.00	0.00
जैक फ्रूट मिशन	94000.00	18600.00
लघु कटौती जीएसटी/टीडीएस	48412.00	258832.00
फलों से शराब बनाने का खर्च	300.00	0.00
NEIGRIHMS गेस्ट हाउस का खर्च	1158672.00	0.00
आजादी का अमृत महोत्सव	23539440.00	0.00
सीमा क्षेत्र विकास व्यय	0.00	6493.00
	0.00	135000.00





THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

31 मार्च 2024 के आय-व्यय का तुलन पत्र अनुसूची अंग

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि: जारी...	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	2023-24	2022.23
अन्य: -		
बैंक शुल्क		
बोर्ड मीटिंग का खर्च	8554.21	12118.25
कार्यालय का व्यय	67228.00	30121.00
पीओएल एवं वाहन रखरखाव	485580.93	447381.16
एलपीजी सिलेंडर और रिफिलिंग	453572.00	284505.00
जीएसटी ब्याज, आदि	489250.00	369400.00
सदस्यता शुल्क	14282.00	0.00
अनुलग्नक I के अनुसार छोटे-मोटे खर्च और विविध वस्तुएं	26643.00	22413.36
टूल किट की खरीद	52686.00	61132.00
बकव्हीट प्रोग. व्यय	257159.00	0.00
एटीसी द्वारा स्वीकृत छूट	0.00	3000193.64
एटीसी से निधि स्थानांतरित की गई	0.00	25507.00
एटीसी से निधि स्थानांतरित की गई	0.00	22000.00
नॉर्थ ईस्ट फूड शो (एमआईई)	0.00	368132.00
सीमा क्षेत्र विकास - प्रशिक्षुओं के लिए उपकरण	0.00	8354395.00
सीमा क्षेत्र विकास - परिवहन शुल्क	0.00	218400.00
सीमा क्षेत्र विकास - प्रशासनिक प्रभार	0.00	66000.00
पूर्व अवधि समायोजन - (जीपीएफ निकासी) एस मकदोह	0.00	3620.00
पूर्व अवधि समायोजन (जीपीएफ निकासी) विजय कुमार	0.00	176803.00
पूर्व अवधि समायोजन (जीपीएफ निकासी) डब्ल्यू खोंगवार	0.00	17860.00
<b>कुल</b>	<b>41211021.14</b>	<b>21641137.60</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

31 मार्च 2024 के आय-व्यय का तुलन पत्र अनुसूची अंग

अनुसूची 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	0.00	0.00
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

अनुसूची 23- ब्याज	वर्तमान वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022.23
(ए) निश्चित ऋण पर	0.00	0.00
(बी) अन्य ऋणों पर	0.00	0.00
(ग) ओवरड्राफ्ट पर	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED  
NUTRITION MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 ::  
MEGHALAYA**

**अनुसूची-1  
31 मार्च 2024 को सामान्य रोकड़ व्यय**

विवरण	सामान्य परिसर	राशि रू. में	
		छात्रावास	कुल
डाक और टेलीग्राम	29111.00	0.00	<b>29111.0</b>
पेट्रोल, तेल और स्नेहक	1000.00	0.00	<b>1000.0</b>
परिचालन व्यय	2780.00	0.00	<b>2780.0</b>
मरम्मत और रखरखाव	1040.00	2400.00	<b>3440.0</b>
वाहन	6950.00	0.00	<b>6950.0</b>
मुद्रण एवं स्टेशनरी	5170.00	0.00	<b>5170.0</b>
कार्यालय का व्यय	3720.00	0.00	<b>3720.0</b>
प्रशिक्षण की कार्यशाला	515.00	0.00	<b>515.0</b>
			<b>0</b>
<b>कुल</b>	<b>50286.00</b>	<b>2400.00</b>	<b>52686.00</b>



## होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान

मावडियांग-डियांग शिलांग 793018 मेघालय

अनुसूची 24- 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 1. लेखांकन सम्मेलन

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन (इसके बाद संस्थान के रूप में संदर्भित) के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन और लेखांकन की वास्तविक पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

### 2. सेवानिवृत्ति लाभ

संस्थान अपने कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक के बचत खातों में स्थानांतरित करके सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान करता है। इसके अलावा संस्थान ईपीएफओ और एनआईएस में भी योगदान देता है। योग्य कर्मचारियों का सम्मान प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की कटौती संबंधित कर्मचारियों के मूल स्थान पर भेज दी जाती है।

### 3. अनुदान

अनुदानों को लेखा पुस्तकों में इस प्रकार दर्ज किया जाता है कि वे प्राप्य हो जाएं। पूंजी खाते में प्राप्त/प्राप्त होने वाले अनुदानों को पूंजीकृत कर दिया जाता है तथा उन्हें लेखा पुस्तकों में अलग से दिखाया जाता है, तथा राजस्व खाते में प्राप्त/प्राप्त होने वाले अनुदानों को वर्ष की आय माना जाता है।

### 4. सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण

चालू वित्त वर्ष में घाटे को देखते हुए सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

### 5. मूल्यहास

क. संस्थान लेखांकन मानक 10 मूल्यहास लेखांकन के प्रावधानों का पालन करता है और निम्नलिखित का खुलासा करता है। वर्ष के लिए मूल्यहास की गणना परिसंपत्ति के लिखित मूल्य पर की जाती है।

ख. परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 में ऐसी परिसंपत्तियों के लिए निर्दिष्ट दरों के संदर्भ में लगाया जाता है।

### 6. अचल संपत्तियां

अनुसूची & को लेखांकन मानक 10-संपत्ति योजना और उपकरण की प्रकटीकरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

स्थान: शिलांग

दिनांक: 13-09-2024

यूडीआईएन 240634638KBLPG7277

अध्यक्ष

आईएचएमसीटीएन

शिलांग

प्रिंसिपल

आईएचएमसीटीएन

शिलांग

अमिल ओपी शर्मा एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए

*Amit Sharma*

(अमित शर्मा

प्रोपराइटर

एम नं 063463



## होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान

मावडियांग-डियांग शिलांग 793018 मेघालय

अनुसूची: 25- 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स

1. 31 मार्च 2024 तक कोई आकस्मिक देयता नहीं है
2. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़े समूहीकृत कर दिए गए हैं।
3. कॉलेज और छात्रावास दोनों से संबंधित फीस के प्रारंभिक अग्रिमों को चालू वर्ष के आय और व्यय खाते में मान्यता दी गई है क्योंकि ऐसे अग्रिम पिछले वर्ष में चालू वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त हुए थे।

स्थान: शिलांग

दिनांक: 13-09-2024

यूडीआईएन 240634638KBLPG7277

अध्यक्ष

आईएचएमसीटीएएन  
शिलांग

प्रिंसिपल

आईएचएमसीटीएएन  
शिलांगअमिल ओपी शर्मा एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए

(अमित शर्मा

प्रोपराइटर

एम नं 063463



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**Bank Reconciliation Statement as on March 31st 2024**

**Bank of Baroda Account No. 30270100006462 (IHM GENERAL A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024 3092924.09

Add: NEFT issued but not presented for

<u>Date</u>	<u>Cheque No. / Bill No</u>	<u>Amount (Rs.)</u>	
27.03.2024	No		
27.03.2024	991	709301	
27.03.2024	992	660000	
27.03.2024	982	8080.00	<b>1791422.00</b>

Balance as per Pass Book as on 31-03-24 4884346.09

**Bank of Baroda Account No. 30270100006367**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024 -23695.70

Add: Cheques issued but not presented for payment

<u>Date</u>	<u>Cheque No. / Bill No</u>	<u>Amount Rs.</u>	
20.03.2024	88	60349.00	
20.03.2024	89	7857.00	68206.00

Balance as per Pass Book as on 31-03-2024 44510.30

**Bank of Baroda Account No. 30270100011519 (IHM ATC A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024 1170689.37

Balance as per Pass Book as on 31-03-2024 1170689.37

**Bank of Baroda Account No. 30270100007469 (IHM BUILDING A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024 270399.40

Balance as per Pass Book as on 31-03-2024 270399.40

**Bank of Baroda Account No. 30270100011139 (IHM FEES A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024 175009.95

Balance as per Pass Book as on 31-03-2024 175009.95



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**Bank Reconciliation Statement as on March 31st 2024**

**Bank of Baroda Account No. 30270100011141 (IHM HOSTEL FEES A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	270231.57
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>270231.57</u>

**Bank of Baroda Account No. 30270100006479 (IHM PROVIDENT FUND A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	1774076.69
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>1774076.69</u>

**Bank of Baroda Account No. 30270100009553 (IHM CAUTION MONEY A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	1816550.00
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>1816550.00</u>

**Bank of Baroda Account No. 30270100009554 (IHM PENSION & GRATUITY A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	4847519.00
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>4847519.00</u>

**ICICI Account No. 747701000103 (IHM CORPUS FUND A/C)**

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	1744322.43
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>1744322.43</u>

**ICICI Account No. 747701000087 (IHM BORDER AREA DEVELOPMENT FUND A/C)**


Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	20355.00
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>20355.00</u>







जुमाना और विलंब शुल्क प्राप्त (सेम/हॉस्टल)	1331200.00	फ्लेक्सो फिक्स्ड डिपॉजिट (खाता संख्या 6367) छात्रावास	2310000.00
साविधि जमा (खाता संख्या 32569)	46360.00	फ्रूट वाइन मिशन एक्सपीएस एमएफईसी- एटीसी	546829.00
साविधि जमा (खाता संख्या 32570)	3000000.00	फ्रूट वाइन मिशन एक्सपीएस एमएफईसी- जनरल	41175.00
साविधि जमा (खाता संख्या 32571)	3000000.00	फ्रूट वाइन मिशन एक्सपीएस एमएफईसी-जनरल	571793.00
साविधि जमा (खाता संख्या 32572)	3000000.00	फर्नाचर, फिक्स्चर और फर्निशिंग- एटीसी	641029.00
साविधि जमा (खाता संख्या 32573)	3000000.00	फर्नाचर, फिक्स्चर और फर्निशिंग- परिसर	241750.00
साविधि जमा (खाता संख्या 33350)	1714589.00	जीएसटी देय	127308.00
साविधि जमा (खाता संख्या 33351)	4000000.00	जीएसटी टीडीएस	430389.00
साविधि जमा (खाता संख्या 33358)	4000000.00	हरे प्रसाद (पेंशन)	180283.00
साविधि जमा (खाता संख्या 33593)	2000000.00	गेस्ट फैकल्टी, को-ऑर्डिनेटर आदि को मानदेया	114950.00
साविधि जमा (खाता संख्या 34323)	4000000.00	हाउसकीपिंग व्यय (एटीसी)	24717.00
साविधि जमा (खाता संख्या 747713001154)	2500000.00	आयकर	418027.00
फ्लेक्सो फिक्स्ड डिपॉजिट (खाता संख्या 6367) छात्रावास	13600000.00	आयकर टीडीएस वसूली वित्तीय वर्ष- 2023-24	485534.00
खाद्य बिक्री (एटीसी)	2282000.00	बीमा वाहन	17061.00
भोजन बिक्री प्राप्त (छात्रावास)	1765834.00	जैक फ्रूट मिशन व्यय- एटीसी	48412.00
फ्रूट वाइन- मेघ किसान आयोग, जीओएम-रसीद	111090.00	जेईई व्यय (मानदेय, आदि)	554279.00
फ्रूट वाइन मिशन एक्सपीएस एमएफईसी- जनरल	753784.00	जेएनयू नामांकन शुल्क (भुगतान)	878490.00
कर्मचारियों का जीपीएफ/एनपीएस योगदान (रसीद)	1125.00	रसोई की सामग्री	2099692.00
छात्रावास शुल्क रसीदें	1739925.00	पुस्तकालय पुस्तकें	727060.00
आयकर	8112575.00	लिंडा कोंगहे (एलटीसी एडवांस)	13500.00
एफएफडी (6367) छात्रावास पर अर्जित ब्याज	418027.00	लिंडा कोंगहे (प्रशिक्षण अग्रिम)	25200.00
अनुदान पर अर्जित ब्याज-7469 (भवन खाता)	14677.00	एचएसआरटी को ऋण	1325000.00
प्राप्त ब्याज- 1141 छात्रावास शुल्क	8469.00	एलपीजी सिलेंडर और रिफिलिंग (एटीसी)	101450.00
प्राप्त ब्याज- 11519 एटीसी	39374.00	एलपीजी सिलेंडर एवं रिफिलिंग (परिसर)	193900.00
प्राप्त ब्याज-6367 (छात्रावास)	37276.00	एलपीजी सिलेंडर एवं रिफिलिंग (छात्रावास)	193900.00
प्राप्त ब्याज-9553 सावधानी राशि	1603.00	एलटीसी एडवांस (विवेक कुमार)	36000.00
प्राप्त ब्याज-9554 पेंशन एवं ग्रेज्युटी	65690.00	एलटीसी नकदीकरण और व्यय	104862.00
प्राप्त ब्याज- 98 बीएफ	55529.00	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	433657.00
प्राप्त ब्याज- खाता संख्या 87 (पेंशन एवं ग्रेज्युटी)	601.00	सदस्यता शुल्क	26643.00
प्राप्त ब्याज-बीओबी 11139	157726.00	चल दूरभाष	23000.00
प्राप्त ब्याज (सामान्य खाता) 6462	121401.00	(NEIGRIHMS गेस्ट हाउस)-भुगतान	23539440.00
प्राप्त ब्याज (भविष्य निधि)-6479	62065.00	मावडियंगडियंग में नई भवन परियोजना	122262.00
प्राप्त ब्याज- 103 (कॉर्पास)	33846.00	एनपीएस शुल्क	4744.00
लाइब्रेरी कार्ड प्रमाणपत्र और मार्कशीट जारी करना	51363.00	कर्मचारियों का एनपीएस योगदान (भुगतान)	2881969.00
जेईई एडवांस (अशोक कुमार)	15650.00	एन पाइनगोप(एलटीसी सलाह)	5400.00
जेएनयू नामांकन शुल्क (रसीद)	25000.00	कार्यालय व्यय (अग्रिम)	134400.00
पुस्तकालय पुस्तकें	870105.00	कार्यालय व्यय- एटीसी	142673.00
वेतन (आच) से लाइसेंस शुल्क	521650.00	कार्यालय व्यय- परिसर	369308.00
लिंडा कोंगहे (एलटीसी एडवांस)	15840.00	कार्यालय व्यय (छोटा नकद)	3720.00
एचएसआरटी को ऋण	13500.00	परिचालन व्यय (छोटी नकदी)	2780.00
एलटीसी एडवांस (विवेक कुमार)	1830000.00	परिचालन व्यय- उपभोग्य वस्तुएं, आरएम (कोलेज)	2004889.00



<p>एलटीसी नकदीकरण और व्यय</p> <p>दोपहर के भोजन का शुल्क (कार्यालय कर्मचारी)</p> <p>दोपहर के भोजन का शुल्क (आउटसोर्स स्टाफ एटीसी)-आईएसए</p> <p>दोपहर के भोजन का शुल्क (आउटसोर्स स्टाफ कैम्पस)-आईएसए</p> <p>दोपहर के भोजन का शुल्क (सुरक्षा/एनटीएस आदि कर्मचारी)-यूईएसएसए</p> <p>महालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसायटी</p> <p>मध्याह्नि परीक्षा शुल्क (1 और 1/2 वर्ष सीसीसीएफपीपी)</p> <p>विविध आय (शुल्क)</p> <p>विविध स्वीट- एटीसी</p> <p>विविध स्वीट (परिसर/छात्रावास)</p> <p>विविध आय (1 और 1/2 वर्ष सीसीसीएफपीपी)</p> <p>विविध, व्यय - जी.एस.टी</p> <p>(NEIGRHSMS गेस्ट हाउस)-स्वीट</p> <p>एन पाइन्प्रॉप (जीपीएफ एडवांस)</p> <p>कार्यालय व्यय (अग्रिम)</p> <p>कार्यालय व्यय- परिसर</p> <p>ऑपरेशनल एक्सपीरस सलाहकार (मोहन चंद्रा)</p> <p>वेतन से अन्य राजस्व कटौती</p> <p>आउटडोर कैटरिंग एडवांस (अशोक कुमार)</p> <p>आउटडोर कैटरिंग स्वीट- एटीसी</p> <p>आउटडोर कैटरिंग स्वीट- जनरल</p> <p>रेशन और ग्रेच्युटी अंशदान देवदारियाँ</p> <p>प्राइम हब- मेघ बंसिम प्रबंधना एजेंसी, जीओएम-स्वीट</p> <p>मुद्रण और स्टेशनरी व्यय-एटीसी</p> <p>व्यावसायिक कर देय</p> <p>एनसीएचएमसीटी से पारिश्रमिक</p> <p>टावर की स्थापना के लिए किराया (बीएसएनएल)</p> <p>कमरे का किराया (एटीसी)</p> <p>पूर्णिक करना</p> <p>खाद्य पदार्थों की बिक्री</p> <p>लॉग बुक्स की बिक्री</p> <p>रूल किट की बिक्री</p> <p>संजीत कुमार (एलटीसी एडवांस)</p> <p>सुरक्षा जमा ईएमडी</p> <p>सुरक्षा जमा (छात्रावास शुल्क)</p> <p>शमफांग खोंगलाह (प्रशिक्षण अग्रिम)</p> <p>एस मकदोह (जीपीएफ एडवांस)</p> <p>स्वच्छता ही सेवा एडवांस (डीआरएस पासाह)</p> <p>स्वच्छता ही सेवा अग्रिम (अन्य)</p> <p>स्वच्छता ही सेवा व्यय</p> <p>नमूना कार्य योजना (एसएपी) अधिनियम-1 (प्राप्ति)</p>	<p>49500.00</p> <p>8633.00</p> <p>73500.00</p> <p>2250.00</p> <p>107000.00</p> <p>36500.00</p> <p>184612.00</p> <p>186000.00</p> <p>2321550.00</p> <p>137663.00</p> <p>566644.28</p> <p>570000.00</p> <p>441.00</p> <p>20080661.59</p> <p>60000.00</p> <p>134400.00</p> <p>26400.00</p> <p>12000.00</p> <p>157144.00</p> <p>95000.00</p> <p>1087564.00</p> <p>736893.00</p> <p>8400000.00</p> <p>8286597.00</p> <p>1077.00</p> <p>52520.00</p> <p>99420.00</p> <p>28600.00</p> <p>7144047.00</p> <p>0.06</p> <p>121079.00</p> <p>43215.00</p> <p>118900.00</p> <p>10800.00</p> <p>10000.00</p> <p>427000.00</p> <p>20700.00</p> <p>39318.00</p> <p>10000.00</p> <p>7500.00</p> <p>17800.00</p>	<p>परिचालन व्यय- उपभोच्य, आरएम (छात्रावास)</p> <p>ऑपरेशनल एक्सपीरस सलाहकार (मोहन चंद्रा)</p> <p>आउटडोर कैटरिंग एडवांस (अशोक कुमार)</p> <p>आउटडोर कैटरिंग व्यय- एटीसी</p> <p>आउटडोर खानपान व्यय-जनरल</p> <p>रेशन एवं ग्रेच्युटी अंशदान व्यय</p> <p>पीओएल शुल्क (छोटी नकद)</p> <p>पीओएल (वाहन एवं जेनेरेटर) एक्सपीरस (एटीसी)</p> <p>पीओएल (वाहन एवं जेनेरेटर) एक्सपीरस (कैम्पस)</p> <p>डाक शुल्क और टेलीग्राम (छोटा नकद)</p> <p>प्राइम हब व्यय</p> <p>मुद्रण और स्टेशनरी व्यय-एटीसी</p> <p>मुद्रण और स्टेशनरी व्यय- परिसर</p> <p>मुद्रण और स्टेशनरी (छोटी नकदी)</p> <p>व्यावसायिक एवं लेखा शुल्क-एटीसी</p> <p>व्यावसायिक एवं लेखा शुल्क- परिसर</p> <p>व्यावसायिक एवं लेखा शुल्क-छात्रावास</p> <p>व्यावसायिक कर देय</p> <p>टूल किट की खरीद</p> <p>जल छाजन</p> <p>सेमिस्टर/छात्रावास शुल्क का रिफंड</p> <p>एनसीएचएमसीटी से पारिश्रमिक</p> <p>परमत्त और रखरखाव- कंयूटर और परिधीय</p> <p>परमत्त और रखरखाव (सिलेंडर और गैस) - एटीसी</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (सिलेंडर एवं गैस)- परिसर</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (नलसाजी)- एटीसी</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (नलसाजी)- परिसर</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (नलसाजी) - छात्रावास</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (छोटा नकद-छात्रावास)</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (वाहन)</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (भवन)-एटीसी</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (भवन)-परिसर</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (भवन)-छात्रावास</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक)-एटीसी</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक)-परिसर</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक)-होस्ट</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (फर्नीचर एवं फिक्स्चर)-एटीसी</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (फर्नीचर एवं फिक्स्चर)-परिसर</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (फर्नीचर एवं फिक्स्चर)-छात्रावास</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (जनेरेटर)- एटीसी</p> <p>परमत्त एवं रखरखाव (जनेरेटर)- परिसर</p>	<p>2058683.00</p> <p>15000.00</p> <p>95000.00</p> <p>795636.00</p> <p>108822.00</p> <p>8400000.00</p> <p>1000.00</p> <p>79901.00</p> <p>373671.00</p> <p>29111.00</p> <p>5537261.00</p> <p>40643.00</p> <p>233865.00</p> <p>5170.00</p> <p>133340.00</p> <p>210020.00</p> <p>153400.00</p> <p>420.00</p> <p>257159.00</p> <p>960000.00</p> <p>271825.00</p> <p>42380.00</p> <p>11948.00</p> <p>3130.00</p> <p>315060.00</p> <p>11204.00</p> <p>30760.00</p> <p>1025.00</p> <p>2400.00</p> <p>32696.00</p> <p>345193.00</p> <p>42700.00</p> <p>2820.00</p> <p>14500.00</p> <p>136067.00</p> <p>42805.00</p> <p>495739.00</p> <p>329708.00</p> <p>213839.00</p> <p>32527.00</p> <p>69095.00</p>
---	--	---	---



टीडीएस देय	116319.00	मरम्मत और रखरखाव- स्मॉई उपकरण	141315.00
टीडीएस प्राप्य-2022-23	400551.00	मरम्मत एवं रखरखाव (छोटी नकदी)	1040.00
टेलीफोन एडवांस (मोहन चन्द्र)	72240.00	आर के चटर्जी	10000.00
टेलीफोन शुल्क (इंटरनेट और केबल सहित)-एटीसी	11512.00	पूर्णांक कर	0.16
निविदा/कोटेशन शुल्क	8199.00	वेतन और मजदूरी (एफएओ)	184166.00
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज- 1139	9000.00	वेतन और मजदूरी (नियमित कर्मचारी)	19239403.00
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज- 6462	205372.00	वेतन एवं मजदूरी (वीरधर सलाहकार)	1212888.00
प्रशिक्षण प्रोग. सलाह. (अशोक कुमार)	160913.00	वेतन एवं मजदूरी (एटीसी)	402390.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर्मेडिलिन)	32000.00	वेतन एवं मजदूरी (जनशक्ति आउटसोर्सिंग)-आईएसए	13011773.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम (अशोक कुमार)	20000.00	वेतन एवं मजदूरी (जनशक्ति आउटसोर्सिंग)-डूईएसएसए	1410486.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी खारशींग)	9000.00	संजीत कुमार (एलटीसी एडवांस)	10800.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्टीवे-जनरल)	18000.00	सुरक्षा शुल्क (एटीसी)	16928.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्टेसी वाहंग)	35720.00	सुरक्षा शुल्क (परिसर)	1896344.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम (विवेक कुमार)	715655.00	सुरक्षा शुल्क (छात्रावास)	37179.00
यात्रा एवं वाहन व्यय	20000.00	सुरक्षा जमा ईएमडी	55000.00
ट्यूशन फीस (1 और 1/2 वर्ष सीसीसीएफपीसी)	20000.00	सुरक्षा जमा (छात्रावास शुल्क)	446000.00
ट्यूशन फीस (सेमेस्टर)	67621.00	शेफांग खोंगलाह (प्रशिक्षण अग्रिम)	20700.00
डब्ल्यू खोंगवार (जीपीएफ एडवांस)	3508000.00	लघु कटौती जीएसटी/आईटी	300.00
वर्कशॉप/इवेंट एडवांस (डीआरएस पासह)	20639575.00	छात्र गतिविधियाँ व्यय	353517.00
कार्यशाला, सेमिनार और कार्यक्रम व्यय- एटीसी	60000.00	छात्र गतिविधियाँ अग्रिम (लिंडा कोंगहे)	2400.00
कार्यशाला, सेमिनार एवं कार्यक्रम व्यय- सामान्य	20000.00	स्वच्छता ही सेवा एडवांस (डीआरएस पासह)	10000.00
कार्यशाला, सेमिनार एवं आयोजन स्मॉई-एटीसी	13250.00	स्वच्छता ही सेवा अग्रिम (अन्य)	7500.00
कार्यशाला, सेमिनार एवं कार्यक्रम स्मॉई-जनरल	5581.00	स्वच्छता ही सेवा व्यय	17800.00
	2045098.00	स्वच्छता कार्य योजना प्राप्य	105595.00
	1075969.00	स्वैच एक्शन प्लान (एसएपी) एक्सपीएस गतिविधि-1	106780.00
		स्वैच एक्शन प्लान (एसएपी) एक्सपीएस गतिविधि-2	45392.00
		टीडीएस देय	400551.00
		टेलीफोन एडवांस (मोहन चन्द्र)	11512.00
		टेलीफोन शुल्क (इंटरनेट और केबल सहित)-एटीसी	149119.00
		टेलीफोन शुल्क (इंटरनेट और केबल सहित)-परिसर	123054.00
		स्टाफ/संकाय विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण	308870.00
		प्रशिक्षण प्रोग. सलाह. (अशोक कुमार)	32000.00
		प्रशिक्षण कार्यक्रम (अशोक कुमार)	9000.00
		प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी खारशींग)	18000.00
		प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय (डीओटी)	123435.00
		प्रशिक्षण एवं कार्यशाला (छोटा नकद)	1713297.00
		यात्रा एवं परिवहन व्यय	515.00
		वटिकल एक्सटेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स होस्टल	70821.00
		विजय कुमार (पेंशन)	1750000.00
		कार्यशाला, सेमिनार और कार्यक्रम व्यय- एटीसी	1011780.00
			1717877.00

**23695.70**

बीओबी खाता संख्या 6367 (छात्रावास) 23,695.70 रुपये



		कायशाळा, सेमिनार एवं कार्यक्रम व्यय- सामान्य जमा शेष	1173619.00
		बीओबी खाता संख्या 1139 (शुल्क)	175009.95
		बीओबी खाता संख्या 1141 (छात्रावास शुल्क)	270231.57
		बीओबी खाता संख्या 11519 (एटीसी)	1170689.37
		बीओबी खाता संख्या 6462 (सामान्य)	3092924.09
		बीओबी खाता संख्या 6479 (भविष्य निधि)	1774076.69
		बीओबी खाता संख्या 7469 (भवन)	270399.40
		बीओबी खाता संख्या 9553 (चेतावनी राशि)	1816550.00
		बीओबी खाता नंबर 9554 (पेंशन और ग्रेच्युटी)	4847519.00
		आईसीआईसीआई खाता संख्या 103 (कॉर्पस फंड)	1744322.43
		आईसीआईसीआई खाता संख्या 98 (सीमा क्षेत्र निधि)	20355.00
	<b>TOTAL</b>		<b>15182077.50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>293299872.83</b>

In terms of our report of even date  
for Amit O P Sharma & Co.  
Chartered Accountants

*Amit Sharma*  
Principal  
IHMCTAN  
Shillong

*[Signature]*  
Chairman  
IHMCTAN  
Shillong

Place : Shillong  
Date : 13-09-2024  
UDIN : 24063463BKBLGP7277



(Amit Sharma)  
Proprietor  
M No 063463

# ENGLISH SECTION

## ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2023-24

### About the Institute:

#### I. Introduction:

The Food Craft Institute which was set up in Meghalaya was registered under Registration No. SR/FCI (m)-44/95 of 1995. The Institute was formally upgraded to an Institute of Hotel Management and Catering Technology and inaugurated on 20.11.2001 by Shri M.P. Bezhanah IAS, the then Secretary, Ministry of Tourism, Government of India. The Institute was registered under the Society of Meghalaya under the registration of Societies Act vide No SR/SOTMIOH-44/95 of 1995 with revised memorandum of Association, Rules and Regulation and Bye Laws.

#### II. Aims & Objectives:

I. The objects for which the society is established are:

- i) To establish and to carry on the administration and management of the Meghalaya Institute of Hotel Management herein after called for "Institute whose shall be:
  - a) to provide instruction and training in all the crafts and skills, all the bunches of knowledge both theoretical and applied, and all the organisational and management techniques, which are required for the efficient functioning of the catering establishments of all kinds, as well as institutional feeding programmes in Schools, Industrial establishments and similar.
  - b) to undertake and to associate itself with nutritional extension and development work and to propagate economy in the handling and utilisation of food stuff.
  - c) to provide instruction and training in development of skills and techniques for hospitality and industry as development of Tourism,
  - d) to assist in and associates itself with the efforts of the Central and State Government to popularise wholesome non-cereal foods, particularly protective foods, a view to the diversification of the ordinary Indian diet and the enrichment of its nutritional contents
  - e) to assist in and association itself with the attempts of food research institutions, food scientists and food technologists to find effective and acceptable means of presenting their nutritional
  - f) ideas through the development of suitable, receipes and the planning of means to prescribe courses of instruction, hold examinations and grant certificates, diplomas and other awards to persons
  - g) to fix and demand such fees and other charges as may be laid down in the bye-laws;
  - h) establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of students and members of the staff



- i) to supervise and commel the residence, to regulate the discipline of students of the Institute and to make arrangements for promoting their health, general welfare and cultural and corporate life.
- j) to institute teaching in administrative, technical, ministerial and such other works as may be necessary and to make appointments to the post created therefore and in accordance with rules and bye-laws
- k) to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, loans, monetary assistance, prizes and medals in accordance with the rules and bye-laws and:
- l) to seek affiliation with universities or other appropriate academic or Government bodies or institutions, and obtain the recognition of its courses of instruction, its examinations, its diplomas, certificates and other award by the appropriate educational authorities.
  - ii) to give pensions, gratuities or charitable aid to the teachers, staff and other employees or ex-employees of the society or to their wives, children or dependents
  - iii) to make payments towards insurance and form and contribution to provident and benefit funds for the benefit of any person employed by the society or of the wives, children or other relatives or dependents of such person;
  - iv) to acquire, hold and dispose of property in any manner what over provided that the price approval of the Central and State Government of Meghalaya is obtained in the case of acquisition or disposal of immovable property
  - v) to deal with any property belonging to or vested in the society in such manner as the society may deem fit for advancing the functions of the Institute
  - vi) to borrow and raise money with or without security or on the security of any mortgage, charge or hypothecation or pledge of and over all or any of the immovable properties belonging to the Society or in any other manner whatsoever,
  - vii) to build, construct and maintain houses, hostels, schools or other buildings, and extend, improve repair, enlarge or modify the same including any existing building and to provide and equip the same with light, water, drainage, furniture, fittings, instruments, apparatus and appliances and other things for the use to which such buildings is to be put up or held,
  - viii) to construct or otherwise acquire, lay out, repair, extend, alter, enlarge, improve and use any land, recreation or playgrounds, parks and other immovable property belonging to or held by the society.
  - ix) to start, conduct, print, publish and exhibit any magazines, periodicals, newspapers, hooks, pamphlets or posters that may be considered desirable for the promotion of the objects of the society
  - x) to create and maintain a fund to which shall be created,
- a) all memory provided by the Central and State Government b) all fees and other charged received by the society.
- c) all money received by the Society by way of grunts, gifts, donations, benefictions bequests or transfers; and

d) all money received by the Society in any other manner or from any other sources;  
xi) to deposit all money credited to the Fund created and maintained under Sub-Clause's in such

banks or to invest that in such manner as the Society may decide

xii) to draw, make, accept endorse and discount cheques, notes or other negotiable instruments, and for these purpose to sign, execute and deliver such assurances and deeds as may be necessary.

xiii) to put any of the funds belonging to the society or out of any particular part of such funds the expenses incurred by the society from time to time including all expenses incidental to the formation of the society and management and administration of the foregoing objects including all rents, rates, taxes, outgoing and the salaries of the employees

xiv) to do such lawful acts, deeds or things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the society.

III. COURSES OFFERED:

1. 3 (Three) Years B.Sc. in Hospitality and Hotel Administration. The total intake strength through JEE is 160.

IV. ADMISSION PROCEDURE:

(a) For 3 (three) years B.SC in Hospitality and Hotel Administration the admission procedure are as follows:

- through All India Joint Entrance Examination
- For state Quota seats and North East Council Seats - nomination by the respective State Government concerned

Sl.No.	Course	Duration	Qualification
1.	3 (Three) years B.Sc. in Hospitality and Hotel Administration	3 years	10 + 2 or equivalent

Age - 25 years relaxable by 3 years for SC/ST

Reservation - As per Govt. of India policy

**Admission this academic session 2023-24 in 1st Semester of 3 years B. Sc in Hospitality and Hotel Administration**

Intake	Admn. taken through JEE Counseling					Admn. Of NEC, Forgn Ntnl & State reserved if any				Total Intake
	Gen	SC	ST	OBC	Gen-EWS	NEC	STATE QUOTA	RESIDUAL SEATS	FOREIGN NATIONAL	
192	02	-	02	-	-	69	13	-	-	<b>86</b>

**Admission this academic session 2023-2024 in 1 ½ Year Craftsmanship Certificate Course in Food Production & Patisserie**

Category	Actual Intake
Gen	01
ST	63
SC	3
OBC	-
<b>Total</b>	<b>67</b>

**COMPOSITION OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE IHM SHILLONG**

1. Commissioner & Secretary, Tourism Department etc., Government of Meghalaya	-	Chairperson
2. Senior Economic Adviser, Ministry of Tourism Government of India	-	Member
3. Financial Adviser, Ministry of Tourism Govt. of India	-	Member
4. Regional Director (North East) India Tourism, Guwahati	-	Member
5. Director (A&F) NCHMCT A-34, Sector 62 Institutional Area, Noida	-	Member
6. Commissioner & Secretary Finance Department Government of Meghalaya Shillong	-	Member
7. Director of Tourism, Govt. of Meghalaya	-	Member
8. Higher & Technical Education Government of Meghalaya Shillong	-	Member
9. Principal Institute of Hotel Management Bhubaneshwar VSS Nagar, Odisha 751 007	-	Member
10. Managing Director Hotel Polo Towers Shillong	-	Member
11. Managing Director Hotel Poinisuk, Laitumkhrah Main Road, Shillong – 793 003	-	Member
12. Principal IHMCTAN, Shillong.	-	Member Secretary

**INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY  
AND APPLIED NUTRITION  
MINISTRY OF TOURISM, GOVERNMENT OF INDIA**

## Hunar Se Rozgar Programme

**Details for the Training Program organized by the Institute of Hotel Management, Shillong  
for the Financial Year 2023-24**

**(Sponsored by the Ministry of Tourism, Government of India) Annexure I**

Sl. No.	Training Programme	No. of Hours	Period	Genders		No. of Trainees	Venue	Annual Target
				Male	Female			
1.	Multi Cuisine Cook (1 <sup>st</sup> Batch) Ms. Deborah R. S. Passah	700 Hours	27 <sup>th</sup> July 2023 – 8 <sup>th</sup> November 2023	13	17	30	IHM, Shillong	60
2.	Traditional Snack & Savory Maker (1 <sup>st</sup> Batch) Ms. Deborah R. S. Passah	240 Hours	25th September 2023 – 28th October 2023	12	18	30		
<b>TOTAL</b>				<b>25</b>	<b>35</b>	<b>60</b>		



Chairman  
IHMCTAN  
Shillong



Principal  
IHMCTAN  
Shillong

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY  
AND APPLIED NUTRITION

MINISTRY OF TOURISM, GOVERNMENT OF INDIA

**Entrepreneurship Programme**

Details for the Entrepreneurship Training Program organize by the Institute of Hotel Management, Shillong for the Financial Year  
2023 - 24

(Sponsored by the Ministry of Tourism, Government of India) Annexure II

Sl. No.	Training Programme	No. of Hours	Period	Training Programme					No. of Trainees	Annual Target
				Cook-Tandoor	Bakers	Barman	Homestay (Multi Skill Caretaker)	Halwai – Indian Sweets		
1.	IHM Shillong Ms. Deborah R. S. Passah (Batch 1)	150	6 <sup>th</sup> November 2023 - 27 <sup>th</sup> November 2023	-	-	-	-	30	30	60
2.	IHM Shillong Ms. Deborah R. S. Passah (Batch 1)	150	12 <sup>th</sup> March 2024 – 2 <sup>nd</sup> April 2024	-	30	-	-	-	30	
<b>TOTAL</b>				-	<b>30</b>	-	-	<b>30</b>	<b>60</b>	



Chairman  
IHMCTAN  
Shillong



Principal  
IHMCTAN  
Shillong

**INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY  
AND APPLIED NUTRITION**

MINISTRY OF TOURISM, GOVERNMENT OF INDIA

**DETAILS OF FUNDS RECEIVED AND UNSPENT BALANCE**  
**Under Capacity Building for Providers (HSRT & STC & Any other CBSP Programme)**

Sl. No.	Purpose of the grant	Sanction No. and Date	Amount released (₹)	Total funds received (₹)	Whether UC furnished	Unspent balance if any
1.	Funds for training under CBSP Scheme of the MOT – Destination Based Skill Development Training Programme for the Financial Year 2021 – 22	F. No. PMUSD - 2/54/2021-PMUSD dated: 16.05.2023	3,38,555/-	3,38,555/-	No	N/A


**Target Assigned**

- i. Hunar Se Rozgar Training Programme : 60**
- ii. 6 Days Training Programme : 210**
- iii. Entrepreneurship Training Programme : 60**

**Target Achieved**

- Hunar Se Rozgar Training Programme : 60**  
(Annexure I)
- 6 Days Training Programme : NIL**
- Entrepreneurship Training Programme : 60**  
(Annexure II)

  
 CHAIRMAN  
 IHMCTAN  
 Shillong

  
 Principal  
 IHMCTAN  
 Shillong



**STRENGTH OF THE INSTITUTE 2023-2024****Permanent Faculties**

Principal	-	00
Head of Department	-	01
Senior Lecturer	-	03
Lecturer	-	03
Assistant Lecturer	-	02

<b><u>Guest Faculty</u></b>	-	02
-----------------------------	---	----

**Administrative Staff**

PA to Principal	-	01
Accountant	-	01
UDC	-	03
LDC	-	03
Assistant Librarian	-	01
Peon	-	01
Driver	-	01

**Contract Staff**

Sr. Consultant	-	01
----------------	---	----

**Staff outsourced****Through Agency -A**

Housekeeping	-	14
Lab Attendant	-	07
Lab Assistant	-	03
Junior Lab Assistant	-	03
Hostel Warden	-	01
Demonstrator	-	01
Carpenter	-	01
Carpenter Helper	-	02
Cook	-	01
Office Assistant	-	01
Electrician	-	01
Replacement	-	02
Teaching support	-	01

**Through Agency \_B**

Security Guard	-	07
Teaching Support Faculty	-	01
MTS	-	05
Warden cum SG	-	01
Support Staff	-	01
Lab Assistant	-	01
Housekeeping	-	01

**VIII IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 :**

(a) Particulars of CAPIO, CPIO Appellate Authority

Assistant Public Information Officers :

Sl. No.	Name	Designation	STD Code	Ph. No.		Fax	Email	Address
				Office	Home			
1	Smti. Balabynta Kharshing	Principal		60330 96587		No Fax availability at this area	ihmctan.shillong@gmail.com	Institute of Hotel Mangement Catering Technology & Applied Nutrition, Mawkasiang Mawdiangdiang, Shillong 793018

Public Information Officers :

Sl. No.	Name	Designation	STD Code	Ph. No.		Fax	Email	Address
				Office	Home			
1	Smti. Balabynta Kharshing	Principal		60330 96588		No Fax availability at this area	ihmctan.shillong@gmail.com	Institute of Hotel Mangement Catering Technology & Applied Nutrition, Mawkasiang Mawdiangdiang, Shillong 793018

Department Appellate Authority :

Sl. No.	Name	Designation	STD Code	Ph. No.		Fax	Email	Address
				Office	Home			
1	Dr. Vijay Kumar D.	Commissioner & Secretary. Tourism Department, Govt. of Meghalaya, Chairperson IHM Shillong	0364	2226043		No Fax	vijay meghalaya@gmail.com	Main Secretariat Building

**Chairman  
IHMCTAN  
Shillong**

**Principal  
IHMCTAN  
Shillong**

**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IIInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎:2226095(O)94361-03734(M)

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT****To,**

THE MANAGEMENT OF

**The Institute Of Hotel Management Catering Technology And Applied Nutrition**

Mawdiang-Diang:: Shillong-793018 :: Meghalaya

**Opinion**

We have audited the financial statements **of THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION :: MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG-793018 :: MEGHALAYA**, which comprise the Balance Sheet as at **March 31st 2024**, and the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the entity as at **March 31st 2024**, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), subject to observations mentioned below.

**Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Shillong, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IIInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎:2226095(O)94361-03734(M)

**Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

**Emphasis of Matters**

We draw attention to the following observations:

**1. Fixed Assets:**

a. The Institute has not carried out physical verification of the Fixed Assets during the year 2023-24. It is advised that a detailed fixed asset register be maintained and updated with a proper physical verification of Fixed Assets at the earliest wherein obsolete/damaged assets needs to be written off in the books of accounts.

b. All Fixed Assets of the Institute should be protected sufficiently by way of sufficient insurance. Further, it is advised that all IT resources within the Institute are covered with a proper and valid AMC for ensuring the safety of the said resources.

**2. Books of Accounts and supporting documents/records:**

a. We observe that in cases of direct credit by students into the bank account of the Institute, often there are delays in submission of trails of such receipts. Also there are cases where fees have not been deposited in pre-defined bank account. A process of monthly reconciliation of the same should be started at the earliest. Also, a separate register should be maintained to monitor the issue of Bill Books for collection of fees.

b. Journal voucher files should be maintained separately.



**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IIInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎:2226095(O)94361-03734(M)

- c. Miscellaneous Expenditure amounting to Rs. 14,71,40,904.95 and as reported in the Balance Sheet, actually represents accumulated losses over the past previous years and it appears under the Assets side of the Balance Sheet. Appropriate measures by the management must be taken to transfer and incorporate the same under the Schedule “Reserves & Surplus”.
- d. The books of accounts / vouchers as maintained by the Institute require considerable improvement as far as distinguishing between capital and revenue items of expenditure and grants are concerned.
- e. The Institute should further strengthen its Internal Financial Controls in respect of procurement and recording of fixed assets, purchase of raw materials, manpower supply & others and Collection of Fees.
- f. In respect of Caution Money & Security Deposits, it is strongly recommended that a reconciliation statement should be prepared to ascertain the extent of existing liability and any excess/shortfall should be adjusted in the books of accounts at the earliest.
- g. Correct accounting heads should be accorded in the manual voucher files and bills prepared. In case of multiple ledger heads being affected vide a single bill, details of all such ledgers should be mentioned clearly and booking of expenses be done accordingly. Proper narration must be written compulsorily for all entries.
- h. Rent from the rooms let out to ITTM during the financial year has not been booked at all and hence, the rental income is understated to that extent. Also, the rental income from BSNL has been received and accounted for eleven months only.
- i. There should be a procedure of comparing the actual results of the Institute with the Budgets at regular intervals and the deviations should be addressed.
- j. It is suggested to upgrade the accounting software to the latest version to get benefits of the updated software with useful features and thereby have better internal control and improved performance.



**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎:2226095(O)94361-03734(M)

k. It is suggested that the Institute ensures follow up action on the adverse points / comments / suggestions as highlighted in the current audit report by the Statutory Auditors as well as the comments of earlier years.

**3.** The policies in respect of contribution to GPF and NPS should conform to the statutes governing the same. Also, necessary provisions should be made for gratuity, pension and other death-cum-retirement benefits in accordance with the statutes governing the same.

**4. Inventory Control:**

a. A Stock Inspection Committee must be set up to regularly monitor the allocation of raw materials, consumables and other items by the store-keeper to the general campus, hostel and kitchen.

b. No physical verification of stocks had been done and hence it is suggested that the same should be carried out at the earliest and necessary provisions be made in respect of damaged/obsolete items.

**5. Current Liabilities and Provisions:**


a. Separate set of accounts should be maintained in respect of transactions of activities carried out on behalf of IGNOU, JEE and NCHMCT, giving due bifurcation of expenses incurred or direct receipts availed, if any.

b. Interest Received on Corpus Fund, Endowment Fund, Pension & Gratuity and Provident Fund have been recorded as a Provision which is an income at its essence.

**6.** Since Fees Receivable as on 31st March, 2024 has not been arrived at by the Institute, Fees amount specified in the Income and Expenditure Account as well as the Current Assets of the Institute has been understated to that extent.

**7. Taxation:**

a. During the year under audit, the Institute has not complied uniformly with the statutory requirements of TDS in respect of payments made towards Security Charges, Contractors, Professional Fees, etc. Also, no Certificates u/s 197, for non-deduction / lower deduction of TDS was forthcoming where ever applicable.



**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎:2226095(O)94361-03734(M)

b. During the course of our test check, we observed that the Organization, being registered under GST has not uniformly complied with the provisions of GST. As detailed records are not maintained with regards to GST requirements a proper reconciliation of the GST Balances with the books of account could not be established.

c. According to the records of the Institute, undisputed statutory dues including Provident Fund, Income-tax, Goods and Services Tax and any other statutory dues to the extent applicable, have generally been regularly deposited with the appropriate authorities. However, no reconciliation / workings towards General Provident Fund were forthcoming hence we are unable to comment on material effect on the position of actual liability of the organization towards GPF & Gratuity as on 31.03.2024.

d. We are unable to comment whether adequate provision for the unpaid retirement benefits have been made in the account.

e. The Opening balance of TDS Payable has not been adjusted with the payments made during the year. The same needs to be reconciled and then squared off.

**8. Unreconciled issues:**

a. There are un-reconciled Opening Balances of certain items in Schedule 7 (like Sundry Creditors for others, CBSP) which are lying unpaid for the year and have remained unsettled over a long period of time. Reconciliation of the same is recommended to ensure proper accountability and control of such advances with proper sanction and approvals.

b. In case of long pending payables / receivables, Third Party Confirmations should be obtained for reconciliation and adjustment in the books of accounts. It has been observed that many current dues remain uncleared and no provisions have been made for the same.





**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E



IInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,

Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎:2226095(O)94361-03734(M)

**9. General:**


- a. The internal control with regard to method of recording attendances of the employees needs to be strengthened and biometric machine may be installed.
- b. The bank balance in savings bank account appears to be too high in some of the Bank Accounts. The institute may invest the surplus amount in some short term / medium term deposits which are not in immediate need.
- c. In Schedule-3, Investments, Interest with regards to Fixed Deposits must be accrued and recorded uniformly. Further, bank confirmations with regard to the balance of the Fixed Deposits as at the end of the year have not been forthcoming.
- d. The financial transaction of NEC Project, Jackfruit Mission Project and NSS wherein separate bank accounts have been maintained, are not incorporated in the financial statements attached herewith.
- e. The Institute may consider including short-term courses, workshops, etc. in its academic curriculum to garner more students, thereby establishing itself under self-sustaining model and recovering from the deficit cycle.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the aforesaid Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.



**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA. Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IIInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎: 2226095(O)94361-03734(M)

---

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.



**Amit O P Sharma & Co**

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA.Amit Sharma

B.Com (Hons.), FCA, DISA (ICAI).

FRN 0325831E

IIInd Floor, Salonsar Mansion, Police Bazar,  
Shillong 793001

amitca@gmail.com

☎:2226095(O)94361-03734(M)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.

In terms of our report of even date  
for **AMIT O P SHARMA & CO.**

Chartered Accountants

FRN: 325831E

**(CA. AMIT SHARMA)**

Proprietor

Membership No: 063463

**Place:** Shillong**Date:** 13.09.24**UDIN:**24063463BKBLGP7277


**BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024**

	Schedule	Amount in Rs.	Amount in Rs.
		Current Year (2023-24)	Previous Year (2022-23)
<b>CORPUS CAPITAL FUND AND LIABILITIES</b>			
CORPUS/CAPITAL FUND	1	1744322.43	1692959.43
RESERVES AND SURPLUS	2	1156076.32	1156076.32
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	716596085.16	588630194.16
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0.00	0.00
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0.00	0.00
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0.00	0.00
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	21134153.00	20308698.20
		<b>740630636.91</b>	<b>611787928.11</b>
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	8	533610115.10	444292520.10
INVESTEMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	36438262.00	44158678.00
INVESTMENTS-OTHERS	10	0.00	0.00
CURRENTS ASSETS, LOANS, ADVANCES, ETC	11	23441354.86	16690577.79
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		147140904.95	106646152.22
		<b>740630636.91</b>	<b>611787928.11</b>
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		


In terms of our report of even date  
for Amit O P Sharma & Co.  
Chartered Accountants

Place : Shillong  
Date : 13-09-2024  
UDIN : 24063463BKBLGP7277

  
Chairman  
IHMCTAN  
Shillong

  
Principal  
IHMCTAN  
Shillong



  
(Amit Sharma)  
Proprietor  
M No 063463


**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

	Schedule	Amount in Rs.	
		Current Year (2023-2024)	Previous Year (2022-2023)
<b>INCOME</b>			
INCOME FROM SALES/ SERVICES	12	16182614.54	9036195.80
GRANTS/ SUBSIDIES	13	31116042.59	35013127.00
FEES/ SUBSCRIPTIONS	14	38212530.00	42192084.00
INCOME FROM INVESTMENTS (INCOME ON INVESTMENTS, FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS TRANSFERRED TO FUNDS)	15	0.00	0.00
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC	16	0.00	0.00
INTEREST EARNED	17	2757706.00	514945.00
OTHER INCOME	18	7944654.28	609414.28
INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AN WORK-IN-PROGRESS	19	0.00	0.00
<b>TOTAL (A)</b>		<b>96213547.41</b>	<b>87365766.08</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	52743387.00	56324848.00
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC	21	41211021.14	21641137.60
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC	22	0.00	0.00
INTEREST	23	0.00	0.00
DEPRECIATION (NET TOTAL AT THE YEAR ENDED CORRESPONDING TO SCHEDULE 8)	8	42753892.00	47592359.00
<b>TOTAL (B)</b>		<b>136708300.14</b>	<b>125558344.60</b>
<b>BALANCE BEING EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME (A-B)</b>		<b>(40494752.73)</b>	<b>(38192578.52)</b>
TRANSFER TO SPECIAL RESERVE		0.00	0.00
TRANSFER TO/FROM GENERAL RESERVE		0.00	0.00
<b>SURPLUS (DEFICIT) TRANSFERRED TO MISCELLANEOUS EXPENDITURE</b>		<b>(40494752.73)</b>	<b>(38192578.52)</b>
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

In terms of our report of even date  
for Amit O P Sharma & Co.  
Chartered Accountants

Place : Shillong  
Date : 13-09-2024  
UDIN : 24063463BKBLGP7277

  
Chairman  
IHMCTAN  
Shillong

  
Principal  
IHMCTAN  
Shillong




  
(Amit Sharma)  
Proprietor  
M No 063463

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 1- CORPUS/ CAPITAL FUND</b>	<b>CURRENT YEAR (2023-24)</b>		<b>PREVIOUS YEAR (2022-23)</b>	
	<b>BALANCE AS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>	1692959.43		1692957.43
<b>Add : BANK INTEREST ON CORPUS FUND</b>	51363.00		2.00	
<b>Add: CONTRIBUTION TOWARDS CORPUS/CAPITAL FUND</b>	0.00		0.00	
<b>Less: TRANSFER FROM MISCELLANEOUS EXPENDITURE</b>	0.00		0.00	
<b>Add: BALANCE OF NET INCOME TRANSFERRED FROM THE INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT</b>	0.00	1744322.43	0.00	1692959.43
<b><u>BALANCE AT THE YEAR-END</u></b>		<b>1744322.43</b>		<b>1692959.43</b>

<b>SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS:-</b>	<b>CURRENT YEAR (2023-24)</b>		<b>PREVIOUS YEAR (2022-23)</b>	
	<b><u>1. CAPITAL RESERVE:</u></b>			
AS PER LAST ACCOUNT	0.00		0.00	
ADDITION DURING THE YEAR	0.00		0.00	
LESS: DEDUCTION DURING THE YEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
<b><u>2. REVALUATION RESERVE</u></b>				
AS PER LAST ACCOUNT	0.00		0.00	
ADDITION DURING THE YEAR	0.00		0.00	
LESS: DEDUCTION DURING THE YEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
<b><u>3. SPECIAL RESERVE</u></b>				
AS PER LAST ACCOUNT	0.00		0.00	
ADDITION DURING THE YEAR	0.00		0.00	
LESS: DEDUCTION DURING THE YEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
<b><u>4. GENERAL RESERVE</u></b>				
AS PER LAST ACCOUNT	1156076.32		1156076.32	
ADDITION DURING THE YEAR	0.00		0.00	
LESS: DEDUCTION DURING THE YEAR	0.00	1156076.32	0.00	1156076.32
		<b>1156076.32</b>		<b>1156076.32</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024

SCHEDULE 3-EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP FOR 2023-24		TOTAL	
			Amount in Rs.	
	Capital Expenditure for infrastructure Development	Interest Earned on Grants	Current Year (2023-2024)	Previous Year (2022-2023)
<b>(a) Opening Balance of the Fund</b>	0.00	0.00	582116397.74	631157552.74
<b>(b) Additions to the Funds</b>				
(i) Donation/grants- Ministry Of Tourism, Govt. Of India	127957422.00	0.00	127957422.00	16066256.00
(ii) Income from Investments made on account of Funds	0.00	0.00	3588115.00	3588115.00
(iii) Other additions (Bank Interest)	0.00	8469.00	2934150.42	2925681.42
<b>TOTAL(a+b)</b>	<b>127957422.00</b>	<b>8469.00</b>	<b>716596085.16</b>	<b>653737605.16</b>
<b>(c) Utilization/Expenditure towards objectives of funds</b>				
<b>(i) Capital Expenditure</b>				
Fixed Assets				
Others				
<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>(ii) Revenue Expenditure</b>				
Unspent Balance refunded to NCHMCT	0.00	0.00	0.00	65107411.00
Rent	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Administrative Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>(iii) Prior Period Adjustment</b>				
<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00	65107411.00
<b>TOTAL (c)</b>	0.00	0.00	0.00	65107411.00
<b>NET BALANCE AS AT YEAR-END (a+b-c)</b>	<b>127957422.00</b>	<b>8469.00</b>	<b>716596085.16</b>	<b>588630194.16</b>



**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024**

	CURRENT YEAR (2023-24)		PREVIOUS YEAR (2022-23)	
<b>SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS:</b>				
1 Central Government		0.00		0.00
2 State Government (Specify)		0.00		0.00
3 Financial Institutions				
(a) Term Loans	0.00		0.00	
(b) Interest accrued and due	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Banks:				
(a) Term Loans	0.00		0.00	
Interest accrued and due	0.00		0.00	
(b) Others Loans:	0.00		0.00	
Overdraft (BoB A/c No. 0187)	0.00		0.00	
Interest accrued and due	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
Less : Repaid	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Other Institutions and Agencies		0.00		0.00
6 Debentures and Bonds		0.00		0.00
7 Others		0.00		0.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>





**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024**

<b><u>SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:</u></b>	<b>Current Year (2023-2024)</b>	<b>Previous Year (2022-2023)</b>
1 Central Government	0.00	0.00
2 State Government (Specify)	0.00	0.00
3 Financial Institutions	0.00	0.00
4 Banks:		
(a) Term Loans	0.00	0.00
(b) Others Loans:	0.00	0.00
5 Other Institutions and Agencies	0.00	0.00
6 Debentures and Bonds	0.00	0.00
7 Fixed Deposits	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


<b><u>SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES:</u></b>	<b>Current Year (2023-2024)</b>	<b>Previous Year (2022-2023)</b>
(a) Acceptances secured by Hypothecation of capital equipment and other assets	0.00	0.00
(b) Others	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>	<b>Current Year (2023-24)</b>		<b>Previous Year (2022-23)</b>	
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>				
1 Acceptance		0.00		0.00
2 Sundry Creditors				
a) Meghalaya State Rural Livelihood Society	184612.00		0.00	
b) Everest Marbaniang	0.00		9542.00	
c) Larisa Marpan Entrepreneurs	0.00		72895.00	
d) M/s Iatreilang Suppliers Association	1051424.00		1133203.00	
e) P M Enterprise	0.00		225817.00	
f) Unique Ex-Servicemen Security Agency	366512.00		189685.00	
g) Others	15000.00	1617548.00	15000.00	1646142.00
3 Advances Received	0.00		0.00	0.00
4 Statutory Liabilities:				
a) Overdue	0.00		0.00	
b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Other Current Liabilities				
a. Deposit from students				
i) College Caution Fees	6099035.00		5732535.00	
ii) Hostel Caution Fees	0.00		0.00	
iii) Security Deposits ( Hostel)	2012884.00		2031884.00	
b. Deposit from Others				
i) Earnest Money, Security Deposit	465556.00		385556.00	
ii) Security Deposit (EMD)	809000.00		854000.00	
c. TDS Paid	0.00		0.00	
d. Professional Fees Payable	14720.00		14720.00	
e. CBSP	94151.00		94151.00	
f. IGNOU Fee Payable	1945166.00		1945166.00	
g. NCHMCT Fee Payable	0.00		0.00	
h. TDS from Staff Salary	22083.00		0.00	
i. Audit Fees Payable	80000.00		40000.00	
j. Duties & Taxes	254306.00		464180.20	
k. Professional Tax Payable	55546.00	11852447.00	3446.00	11565638.20
<b>Total (A)</b>		<b>13469995.00</b>		<b>13211780.20</b>




<b>B. PROVISIONS</b>				
1	For Taxation	0.00		0.00
2	Gratuity	0.00		0.00
3	Superannuation/ Pension	0.00		0.00
4	Accumulated Leave Encashment	0.00		0.00
5	Pension Fund	0.00		0.00
6	Children Education Allowance Payable	0.00		216000.00
7	Electricity Charges Payable	0.00		90561.00
8	GPF/CPF (including Interest)	7664158.00	7664158.00	6790357.00
<b>Total (B)</b>			7664158.00	7096918.00
<b>Total (A+B)</b>			<b>21134153.00</b>	<b>20308698.20</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK			
	Rate of Depreciation	Cost/Valuation AS at beginning of the year 01.04.2023	Additions During the Year	Deductions during the Year	Cost /Valuation As at the Year-end	As at the Beginning of the year	Additions during the Year	Deductions during the year	Total up to the year-end	As at the current year-end 31.03.2024	As at the previous year-end 31.03.2023
<b>LAND:</b>											
(a) Freehold	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(b) Leasehold	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) Land / Site Development	0%	29881000.00	0.00	0.00	29881000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29881000.00	29881000.00
<b>BUILDINGS:</b>											
(a) On Freehold Land	10%	126283153.00	0.00	0.00	126283153.00	65811294.00	6047186.00	0.00	71858480.00	54424673.00	60471859.00
(b) On leasehold Land	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) Ownership Flats/Premises	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity	10%	6249067.00	0.00	0.00	6249067.00	4681910.84	156716.00	0.00	4838626.84	1410440.16	1567156.16
(e) Cafeteria at Mawdkok	10%	36588.00	0.00	0.00	36588.00	27287.31	930.00	0.00	28217.31	8370.69	9300.69
(f) Boundary Wall	10%	7151000.00	0.00	0.00	7151000.00	6011697.70	113930.00	0.00	6125627.70	1025372.30	1139302.30
(g) Rain Water Harvesting	10%	3840000.00	960000.00	0.00	4800000.00	1163760.00	315624.00	0.00	1479384.00	3320616.00	2676240.00
(h) Generator Shed	10%	374976.00	0.00	0.00	374976.00	42813.00	33216.00	0.00	76029.00	298947.00	332163.00
(i) F & B Laboratory	15%	432297.00	0.00	0.00	432297.00	193361.00	35840.00	0.00	229201.00	203096.00	238936.00
(j) Construction of Hostel for Teachers' Accommodation	10%	43982300.00	0.00	0.00	43982300.00	4398230.00	3958407.00	0.00	8356637.00	35625663.00	39584070.00
(k) Construction of IHM applied Training Centre	10%	49349400.00	0.00	0.00	49349400.00	4934940.00	4441446.00	0.00	9376386.00	39973014.00	44414460.00
(l) New Building Project at Mawdiangdiang	10%	210800038.00	122262.00	0.00	210922300.00	21080004.00	18984229.00	0.00	40064233.00	170858067.00	189720034.00
(m) Hydraulic Excavation for levelling of Playground	10%	105400.00	0.00	0.00	105400.00	10540.00	9486.00	0.00	20026.00	85374.00	94860.00
(n) Construction of Platform in New Campus	10%	75000.00	0.00	0.00	75000.00	7500.00	6750.00	0.00	14250.00	60750.00	67500.00
(o) Building Incubation Centre	10%	249800.00	0.00	0.00	249800.00	24980.00	22482.00	0.00	47462.00	202338.00	224820.00
(p) Building Shed	10%	246000.00	0.00	0.00	246000.00	24600.00	22140.00	0.00	46740.00	199260.00	221400.00
<b>PLANT &amp; MACHINERY &amp; EQUIPMENT:</b>											
(a) Electrical and Electronic Equipment	15%	28681126.96	849850.00	0.00	29530976.96	16630323.68	1901119.00	0.00	18531442.68	10999534.28	12050803.28
(b) Kitchen Equipments	15%	29603539.00	2099692.00	0.00	31703231.00	19555715.46	1694732.00	0.00	21250447.46	10452783.54	10047823.54
(c) Sewage Treatment Plant	15%	3892000.00	0.00	0.00	3892000.00	1290928.00	390161.00	0.00	1681089.00	2210911.00	2601072.00
(d) Compost Machine	15%	161280.00	0.00	0.00	161280.00	77091.00	12628.00	0.00	89719.00	71561.00	84189.00
(e) Jack Fruit Mission Equipment	15%	245145.00	0.00	0.00	245145.00	52400.00	28912.00	0.00	81312.00	163833.00	192745.00
<b>VEHICLES</b>	15%	2101430.48	0.00	0.00	2101430.48	1633887.79	70131.00	0.00	1704018.79	397411.69	467542.69
<b>FURNITURE, FIXTURES &amp; FURNISHINGS</b>	10%	55289065.68	882779.00	0.00	56171844.68	28661321.62	2715950.00	0.00	31377271.62	24794573.07	26627744.07
<b>OFFICE EQUIPMENTS</b>	15%	2991989.60	0.00	0.00	2991989.60	1630341.36	204247.00	0.00	1834588.36	2157401.24	1361648.24
<b>COMPUTER &amp; PERIPHERALS</b>	40%	10204782.40	138827.00	0.00	10343609.40	7549303.88	1089956.00	0.00	8639289.88	1701349.52	2655478.52





THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**Total Depreciation on Additions During The Year 2023-24**

Fixed Assets	Addition		Rate of Depreciation	Depreciation		
	Before 30th September	After 30th September		At Full Rate	At Half Rate	Total Amount of Depreciation (Rs)
Rain Water Harvesting	0.00	960000.00	10%	0.00	48000.00	48000.00
New Building Project at Mawdiangdiang	122262.00	0.00	10%	12226.00	0.00	12226.00
Furniture, Fixtures & Furnishings	180740.00	702039.00	10%	18074.00	35102.00	53176.00
Electrical and Electronic Equipment:	396800.00	453050.00	15%	59520.00	33979.00	93499.00
Kitchen Equipment:	401079.00	1698613.00	15%	60162.00	127396.00	187558.00
Mobile Phone:	0.00	23000.00	15%	0.00	1725.00	1725.00
Computer & Peripherals	0.00	138827.00	40%	0.00	27765.00	27765.00
Library Books:	563798.00	163262.00	60%	338279.00	48979.00	387258.00
<b>Total Depreciation ON ADDITIONS During The Year</b>						<b>811207.00</b>
<b>Total ADDITIONS During The Year</b>						<b>5803470.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
1 In Government Securities	0.00	0.00
2 Other approved Securities	0.00	0.00
3 Shares	0.00	0.00
4 Debentures and Bonds	0.00	0.00
5 Subsidiaries and Joint Ventures	0.00	0.00
6 Others: -	0.00	0.00
Balance with banks in Term Deposits-		
a. Bank of Baroda, Mawdiang Diang Branch-		
Brought Forward	44158678.00	53022252.00
Add:- Invested during the year	38376173.00	79819908.00
Less:- Matured During the year	46096589.00	88683482.00
Closing Balance	36438262.00	44158678.00
b. Recurring Deposit with ICICI Bank		
Brought Forward	0.00	8500000.00
Add:- Invested during the year (including interest)	0.00	3500000.00
Less:- Matured During the year	0.00	12000000.00
Closing Balance	-	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36438262.00</b>	<b>44158678.00</b>


<b>SCHEDULE 10- INVESTMENTS OTHERS</b>	<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
1 In Government Securities	0.00	0.00
2 Other approved Securities	0.00	0.00
3 Shares	0.00	0.00
4 Debentures and Bonds	0.00	0.00
5 Subsidiaries and Joint Ventures	0.00	0.00
6 Others (to be specified)	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024**

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES, ETC.	CURRENT YEAR (2023-24)		PREVIOUS YEAR (2022-23)	
<b>A.CURRENT ASSETS:</b>				
<b>1.Inventories</b>				
(a) Stores and Spares	0.00		0.00	
(b) Loose Tools	0.00		0.00	
(c) Stock-in-Trade				
Finished Goods	0.00		0.00	
Work-in-progress	0.00		0.00	
Raw Materials	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Sundry Debtors:</b>				
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	0.00		0.00	
(b) Others	1888539.00	1888539.00	0.00	0.00
<b>3.Cash Balances in Hand (including cheques/drafts and imprest)</b>		0.00		0.00
<b>4.Bank Balances:</b>				
(a) <u>With Scheduled Banks</u>				
i) On Current Accounts	0.00		0.00	
ii) On Deposit Accounts				
iii) On savings Accounts: -				
1. BoB A/c No. 6462 (New General Account)	3092924.09		3481491.09	
2. BoB A/c No. 9553 (Caution A/c)	1816550.00		396239.00	
3. BoB A/c No. 6367 (Hostel Account)	(23695.70)		160419.00	
4. BoB A/c No. 6479 (New Provident Fund A/c)	1774076.69		1167148.10	
5. BoB A/c No. 9554 (Pension & Gratuity A/c)	4847519.00		756611.00	
6. BoB A/c No. 7469 (New Building A/c)	270399.40		261930.40	
7. BoB A/c No. 1141 (New Hostel Fee Account)	270231.57		661112.60	
8. BoB A/c No. 11139 (New Fee Account)	175009.95		1858089.95	
9. BoB A/c No. 11519 (ATC)	1170689.37		255653.16	
11. ICICI A/c 103 (Corpus Fund)	1744322.43		1692959.43	
11. ICICI A/c 98 (Border Area Development A/c)	20355.00		19754.00	
12. ICICI A/c No. 0087 (Pension & Gratuity A/c)	0.00	15158381.80	621716.00	11333123.73
(b) With non-Scheduled Banks:				
On Current Accounts	0.00		0.00	
On Deposit Accounts	0.00		0.00	
On savings Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) Interest Accrued (Investment)		0.00		0.00
<b>5.Post Office- Savings Accounts</b>		0.00		0.00
<b>TOTAL (A)</b>		<b>17046920.80</b>		<b>11333123.73</b>





THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024


SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC	CURRENT YEAR (2023-24)		PREVIOUS YEAR (2022-23)	
	<b><u>B.LOANS,ADVANCES AND OTHER ASSETS:</u></b>			
<b><u>1.Loans</u></b>				
(a) Staff	0.00		0.00	
(b) Other Entities engaged in activities/objectives similar in that of the entity	0.00		0.00	
(c) Other Specify				
IHM-HSRT Account	2803560.00		3308560.00	
IHM-Training Centre Account	10000.00	2813560.00	10000.00	3318560.00
<b><u>2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received</u></b>				
(a) On Capital Account	0.00		0.00	
(b) Prepayments				
Veer Polymers	0.00		0.00	
(c) Others:				
<u>JEE Advance</u>				
Ashok Kumar	0.00		25000.00	
<u>Festival Advance</u>	0.00		0.00	
<u>GPF Advance</u>				
N Pyngrope	30000.00		90000.00	
S.Makdoh	178798.00		218116.00	
W. Khongwar	105000.00		165000.00	
<u>Student Activity Advance</u>				
Baggio Pakynten	0.00		3000.00	
Prasant Singh Chand Student	0.00		3000.00	
Sailo & N. Lyngdoh	0.00		4500.00	
S. Khoglah	0.00		15000.00	
<u>LTC Advance</u>				
Vivek Kumar	0.00		13500.00	
N Pyngrope	5400.00		0.00	



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024

<u>Medical Advance</u>	0.00		0.00	
<u>Travelling Advance</u>				
Armedalin	0.00		20000.00	
Stacey Wahlang	0.00		20000.00	
Vivek Kumar	0.00		20000.00	
Vijay Kumar	0.00		0.00	
<u>Workshop / Events</u>				
DRS Passah	0.00		20000.00	
<u>Training Advance</u>				
Linda Khonghay	25200.00		0.00	
<u>Operational Expenses</u>				
Mohan Chandra	15000.00		12000.00	
RK Chatterjee	10000.00		0.00	
Vijay Kumar	22083.00		0.00	
Swachta Action Plan Receivables	105595.00		0.00	
		497076.00		629116.00
<u>3.Income Accrued</u>				
(a) On investments from Earmarked/Endowment Funds	0.00		0.00	
(b) On Investments-Others	0.00		0.00	
(c) On Loans and Advances	0.00		0.00	
(d) Others	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>4.Claims Receivable</u>				
(a) TDS Receivable	624237.00		164607.00	
(b) Deposits (Telephone, Lease Rent, etc)	-800.00		-800.00	
(c) IGNOU Remuneration	0.00		0.00	
(d) IHMCTAN Training Centre	297016.00		297016.00	
(e) GST Receivables	2162710.06		948320.06	
(f) Others	635.00	3083798.06	635.00	1409778.06
<b>TOTAL (B)</b>		6394434.06		5357454.06
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>23441354.86</b>		<b>16690577.79</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES/SERVICES</b>		<b>Current Year (2023-2024)</b>	<b>Previous Year (2022-2023)</b>
1	<u>Income from sales</u>		
	(a) Sale of finished goods	0.00	0.00
	(b) Sale of Raw Material	0.00	0.00
	(c) Sale of Scraps	0.00	25000.00
	(d) Sale of Brochure / Journals / Coupons	0.00	0.00
	(e) Sale of Log Books	43215.00	27000.00
	(f) Sale of Tool Kits	118900.00	293205.00
	(g) Sale of Food Items (ATC)	1907662.56	1178506.00
	(h) Sale of Food Items	117957.24	585889.00
	(i) Sale of Food Items (Hostel)	256590.00	0.00
2	<u>Income from Services</u>		
	(a) Labour and Processing Charges	0.00	0.00
	(b) Professional/Consultancy Services	0.00	0.00
	(c) Agency Commission and Brokerage	0.00	0.00
	(d) Maintenance Services (Equipment/Property)	0.00	0.00
	(e) Others: -	0.00	0.00
	Lunch Charges recovery	233000.00	224000.00
	Advertisement Recovery	169491.52	0.00
	Outdoor Catering	2037808.00	425530.00
	French Class (Student Development)	0.00	50000.00
	Workshop, Seminar & Events	3602496.50	1137736.00
	Mid Day Meal	0.00	50000.00
	Accommodation Charges	449411.00	275743.00
	Room Rent (ATC)	7246082.72	4763586.80
<b>TOTAL</b>		<b>16182614.54</b>	<b>9036195.80</b>

<b>SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES</b> (Irrevocable Grants & subsidies Received)		<b>Current Year (2023-2024)</b>	<b>Previous Year (2022-2023)</b>
1	Central Government :		
	Ministry of Tourism - Recurring	0.00	25941000.00
	Ministry of Tourism - SAP	0.00	177480.00
2	State Government:		
	DoFP (NEFS)	0.00	885000.00
	Border Area Development	0.00	3740002.00
	DOFP (Buckwheat Prog)	0.00	3517745.00
	NEC (CCV)	0.00	751900.00
	DOT (Tourism Awareness Programme)	1995000.00	0.00
	Meghalaya Farmers Commission	753784.00	0.00
	Prime Hub - Meghalaya Basin Management Agency	8286597.00	0.00
	NEIGRIHMS Guest House	20080661.59	0.00
3	Kendriya Hindi Sikshan Mantralaya	0.00	0.00
4	International Organisations	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>31116042.59</b>	<b>35013127.00</b>




THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 14- FEES/ SUBSCRIPTIONS</b>	<b>Current Year (2023-2024)</b>	<b>Previous Year (2022-2023)</b>
	1 Entrance Fees	0.00
2 Annual Fees/ Subscriptions	0.00	0.00
3 Seminar/ Program Fees	0.00	0.00
4 Consultancy Fees	0.00	0.00
5 Others: -	0.00	0.00
<b>Academic Receipts during the year:-</b>		
a. Admission Fees	239600.00	217500.00
b. Examination Fees & Reappearance Fees	1598700.00	1693850.00
c. Fines & Late Fees	46360.00	0.00
d. Institutional Local Fees	0.00	0.00
e. Other Fees (including Issue of ID Cards, Library Cards,	15650.00	1600.00
f. Tuition Fees	24147575.00	27385258.00
g. NCHMCT Receipts	57040.00	9298.00
h. Enrolment Fees	319200.00	216900.00
i. Miscellaneous Income (Fees)	2891550.00	3282150.00
j. Mid Term Exam Fees	186000.00	156000.00
Hostel Fees	8112575.00	10292909.00
Training Programme Receipts	0.00	0.00
IGNOU receipts, JEE receipts and other allied revenue receipts	870105.00	125000.00
	<b>38484355.00</b>	<b>43380465.00</b>
Less: - Refunds of Fees	271825.00	1188381.00
<b>TOTAL</b>	<b>38212530.00</b>	<b>42192084.00</b>

<b>SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS</b>	<b>Investment from Earmarked Funds</b>		<b>Investment: Others</b>	
	<b>Current Year (2023-2024)</b>	<b>Previous Year (2022-2023)</b>	<b>Current Year (2023-2024)</b>	<b>Previous Year (2022-2023)</b>
1 Interest				
a) On Govt. Securities		0.00	0.00	0.00
b) Other Bonds/ Debentures		0.00	0.00	0.00
2 Dividends:				
a) On Shares		0.00	0.00	0.00
b) On Mutual Fund Securities		0.00	0.00	0.00
3 Rents		0.00	0.00	0.00
4 Others( Specify)		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>				




THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC</b>		<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
1	Income from Royalty	0.00	0.00
2	Income from Publications	0.00	0.00
3	Others	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>SCHEDULE 17- INTEREST EARNED</b>		<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
1	On Term Deposits:		
	(a) With Scheduled Banks	2429696.00	259534.00
	(b) With Non-Scheduled Banks	0.00	0.00
	(c) with Institutions	0.00	0.00
	(d) Others	0.00	0.00
2	On Savings Accounts		
	(a) With Scheduled Banks	328010.00	255411.00
	(b) With Non-Scheduled Banks	0.00	0.00
	(c) with Institutions	0.00	0.00
	(d) Others	0.00	0.00
3	On Loans:		
	(a) Employees/Staff (On Motor Advance)	0.00	0.00
	(b) Others	0.00	0.00
4	Interest on Debtors and Other Receivables	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2757706.00</b>	<b>514945.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA


**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 18- OTHER INCOME</b>		<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
1	Profit on Sale/Disposal of Assets		
	(a) Owned Assets	0.00	0.00
	(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	0.00	0.00
2	Export Incentives realized	0.00	0.00
3	Fees for Miscellaneous Services	0.00	0.00
4	Deferred Income	0.00	0.00
5	Guest Room	0.00	0.00
6	Miscellaneous Receipts	6592716.28	159716.28
7	License Fees	15840.00	15840.00
8	Other revenue deductions form Staff Salaries	157144.00	140308.00
9	Prior Period items	0.00	0.00
10	Tender Fees	9000.00	30500.00
11	Training Programme Receipts	1025035.00	263050.00
12	In House Facilities - NEC	0.00	0.00
13	Rent for installation of BSNL Tower	28600.00	0.00
14	Swatch Action Plan (SAP)	116319.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7944654.28</b>	<b>609414.28</b>

<b>SCHEDULE 19- INCREASE/DECREASE IN STOCK OF FINISHED GOODS &amp; WORK IN PROGRESS</b>		<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
(a)	Closing Stock		
	Finished Goods	0.00	0.00
	Work-in-progress	0.00	0.00
(b)	Less: Opening Stock		
	Finished Goods	0.00	0.00
	Work-in-progress	0.00	0.00
<b>NET INCREASE/(DECREASE) [a-b]</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



<b>SCHEDULE-20 ESTABLISHMENT EXPENSES</b>	<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
<b>General Establishment Expenses: -</b>		
Salaries and wages (General)	19239403.00	19703297.00
Salaries to Senior Consultant	1212888.00	300117.00
Salaries and wages (ATC)	402390.00	229030.00
Salaries and wages (FAO)	184166.00	0.00
Pension	1192063.00	3470024.00
Allowances and Bonus: -		
Children Education Allowances	0.00	378000.00
Bonus to Employees	117436.00	117436.00
D A Arrears	224508.00	227020.00
MACP Arrears	0.00	4536.00
Leave Travel Concession (Expenses and Encashment)	96229.00	217624.00
Leave Encashments	0.00	2671462.00
Honorarium to Guest Faculty, Co-ordinators etc	114950.00	91400.00
Medical Reimbursements	433657.00	469676.00
Manpower Outsourcing	14561444.00	13418023.00
Security Charges	1920064.00	1866984.00
Gratuity Paid	0.00	2000000.00
GPF Paid	0.00	1470726.00
	<b>39699198.00</b>	<b>46635355.00</b>
<b>Academic Expenses: -</b>		
Campus Interview and Recruitment Expenses	110468.00	72621.00
Enrolment Fees remittance to NCHMCT	307200.00	216900.00
Exam Fee Remittances, Remuneration & other Exam Expenses	888040.00	970146.00
JNU, IGNOU Expenses (Including honorarium, etc. )	878490.00	0.00
Papers and Periodicals	0.00	0.00
Student Activities	381417.00	206133.00
Career Awareness Programme	0.00	0.00
Border Area Development	0.00	0.00
Joint Entrance Examination Expenses(Honorarium etc)	554279.00	33315.00
NCHMCT Fees Remittance Expenses	0.00	74418.00
Workshops, Seminars & Events Expenses	2872665.00	1017197.00
	5992559.00	2590730.00
Less:- Receipts on account	0.00	0.00
	<b>5992559.00</b>	<b>2590730.00</b>
<b>Operational Expenses: -</b>		
Consumables & raw-materials for Campus	1696635.00	3147160.00
Consumables & raw-materials for Hostel	2058683.00	2342635.00
Consumable Raw Materials Exps (ATC)	2367137.00	1041075.00
Housekeeping Expenses (ATC)	24717.00	125333.00
House-keeping and Gardening materials	0.00	76745.00
Outdoor Catering Charges	904458.00	365815.00
	7051630.00	7098763.00
Less:- Receipts on account	0.00	0.00
	<b>7051630.00</b>	<b>7098763.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52743387.00</b>	<b>56324848.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 21- OTHERS ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC</b>	<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
Electricity and Power	1466484.00	1019901.00
Insurance	17061.00	19656.00
Repairs and Maintenance-		
i) Gas Bank, Cylinders and Gas Range	318190.00	54975.00
ii) Computers and Peripherals	11948.00	106640.47
iii) Furniture and Fixtures	1039286.00	456176.16
iv) Electrical and Electronic Equipments	193372.00	651799.00
v) Kitchen Items & Equipments	141315.00	119665.00
vi) Building	390713.00	429649.88
vii) Plumbing	42989.00	163392.84
viii) Vehicles	32696.00	75358.00
ix) Generator	101622.00	419420.00
x) Hostel	0.00	0.00
ix) General	0.00	0.00
Postage, Telephone and Communication Charges	263974.00	155375.00
Printing and Stationery	273431.00	710516.24
Travelling and Conveyance Expenses	3200.00	103786.00
Swatchata Pakhwara	0.00	7145.00
Swatch Action Plan Expenses	152172.00	177480.00
Auditors Remuneration	40000.00	40000.00
Professional & Accounting Charges	496760.00	0.00
NPS Charges	4744.00	2152.00
NPS Contribution	1768744.00	2572021.00
Advertisement and Publicity	65171.00	114310.60
Training Expenses	2145602.00	95012.00
Consultancy Charges	0.00	247800.00
Ek Bharat Shreshtha Bharat Programme	8507.00	0.00
Prime Hub Expenses	5537261.00	0.00
Cloth, Uniforms & Linen	94000.00	18600.00
Jack Fruit Mission	48412.00	258832.00
Short Deduction GST/TDS	300.00	0.00
Fruit Wine Making Expenses	1158672.00	0.00
NEIGRIHMS Guest House Expenses	23539440.00	0.00
Azadi Ka Amrit Mahotsav	0.00	6493.00
Border Area Development Expenses	0.00	135000.00





THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 21- OTHERS ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC : Contd...</b>	<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
<u>Others: -</u>		
Bank Charges	8554.21	12118.25
Board Meeting Expenses	67228.00	30121.00
Office Expenses	485580.93	447381.16
POL & Vehicle Maintenance	453572.00	284505.00
LPG Cylinders and Refilling	489250.00	369400.00
GST Interest, etc	14282.00	0.00
Membership Fees	26643.00	22413.36
Petty Expenses and Sundries as per <b>Annexure I</b>	52686.00	61132.00
Purchase of Tool Kit	257159.00	0.00
Buckwheat Prog. Expenses	0.00	3000193.64
Discount Allowed ATC	0.00	25507.00
Fund Transferred From ATC	0.00	22000.00
North East Food Show (MIE)	0.00	368132.00
Border Area Development - Equipment for Trainees	0.00	8354395.00
Border Area Development - Transportation Charges	0.00	218400.00
Border Area Development - Administrative Charges	0.00	66000.00
Prior Period Adjustments - (GPF Withdrawal) S Makdoh	0.00	3620.00
Prior Period Adjustment (GPF Withdrawal) Vijay Kumar	0.00	176803.00
Prior Period Adjustment (GPF Withdrawal) W Khongwar	0.00	17860.00
<b>TOTAL</b>	<b>41211021.14</b>	<b>21641137.60</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

<b>SCHEDULE 22- EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC</b>	<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
(a) Grants given to Institutions/Organisations	0.00	0.00
(b) Subsidies given to Institutions/Organisations	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


<b>SCHEDULE 23- INTEREST</b>	<b>Current Year (2023-24)</b>	<b>Previous Year (2022-23)</b>
(a) On fixed Loans	0.00	0.00
(b) On other Loans	0.00	0.00
(c) On Overdraft	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

**ANNEXURE I**  
**PETTY CASH EXPENSES FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024**

<u>Particulars</u>	<u>Amount in Rs.</u>		
	<u>General Campus</u>	<u>Hostel</u>	<u>Total</u>
Postage and Telegram	29111.00	0.00	<b>29111.00</b>
Petrol, Oil and Lubricants	1000.00	0.00	<b>1000.00</b>
Operational Expenses	2780.00	0.00	<b>2780.00</b>
Repairs & Maintenance	1040.00	2400.00	<b>3440.00</b>
Conveyance	6950.00	0.00	<b>6950.00</b>
Printing & Stationery	5170.00	0.00	<b>5170.00</b>
Office Expenses	3720.00	0.00	<b>3720.00</b>
Training & Workshop	515.00	0.00	<b>515.00</b>
<b>Total</b>	<b>50286.00</b>	<b>2400.00</b>	<b>52686.00</b>



# THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION

MAWDIANG-DIANG SHILLONG 793018 MEGHALAYA

## SCHEDULE 24-SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

### 1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements of Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition (hereafter referred to as institute) are prepared on the basis of historical cost convention and on actual method of accounting.

### 2. RETIREMENT BENEFITS

The Institute makes provisions for retirement benefits by transferring a part of its employees' salaries to savings bank accounts held with Bank of Baroda as well as ICICI Bank Further the institution contributes to EPFO and to NIS in respect of eligible employees.

The deductions for retirement benefits of the employees on deputation are remitted to the respective employees' stations-of-origin.

### 3. GRANTS

Grants are accounted for in the books of accounts as and when they become receivable Grant received/ receivable on Capital Account are capitalised and shown separately in the books of accounts and those received/receivable on Revenue Account are treated as income of the year.

### 4. TRANSFER TO GENERAL RESERVE

In view of deficit in the current financial year no amount has been transferred to General Reserve.

### 5. DEPRECIATION

The Institute follows the provisions of Accounting Standard 10 Depreciation Accounting and got the following to disclose:

- Depreciation for the year is calculated on the written down value of the asset.
- Depreciation on assets is charged as with reference to the rates specified for such assets in the Income Tax Act 1961.


### 6. FIXED ASSETS

Schedule 8 has been prepared keeping in mind the disclosure requirements of Accounting Standard 10 - Property Plant and Equipment.

In terms of our report of even date  
for Amit O P Sharma & Co.  
Chartered Accountants

Place : Shillong  
Date : 13-09-2024  
UDIN : 24063463BKBLGP7277

  
Chairman  
IHMCTAN  
Shillong

  
Principal  
IHMCTAN  
Shillong



  
(Amit Sharma)  
Proprietor  
M No 063463

**THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION**

**MAWDIANG-DIANG SHILLONG 793018 MEGHALAYA**


**Schedule: 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024**

1. No contingent liabilities as on 31 March 2024
2. Previous year's figures wherever necessary, have been grouped
3. Opening advances of fees pertaining to both college and hostel have been recognized in the Income and Expenditure Account of the current year as such advances were received in the previous year for the current year period.

In terms of our report of even date  
for Amit O P Sharma & Co.  
Chartered Accountants

Place : Shillong  
Date : 13-09-2024  
UDIN : 24063463BKBLGP7277

  
Chairman  
IHMCTAN  
Shillong

  
Principal  
IHMCTAN  
Shillong



  
(Amit Sharma)  
Proprietor  
M No 063463

THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

Bank Reconciliation Statement as on March 31st 2024

Bank of Baroda Account No. 30270100006462 (IHM GENERAL A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024				3092924.09
Add: NEFT issued but not presented for payment				
	<u>Date</u>	<u>Cheque No. / Bill No</u>	<u>Amount (Rs.)</u>	
	3/27/2024	990	414041.00	
	3/27/2024	991	709301.00	
	3/27/2024	992	660000.00	
	3/27/2024	982	8080.00	1791422.00
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024				<u><u>4884346.09</u></u>

Bank of Baroda Account No. 30270100006367

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024				-23695.70
Add: Cheques issued but not presented for payment				
	<u>Date</u>	<u>Cheque No. / Bill No</u>	<u>Amount (Rs.)</u>	
	3/20/2024	88	60349.00	
	3/20/2024	89	7857.00	68206.00
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024				<u><u>44510.30</u></u>

Bank of Baroda Account No. 30270100011519 (IHM ATC A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024				1170689.37
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024				<u><u>1170689.37</u></u>

Bank of Baroda Account No. 30270100007469 (IHM BUILDING A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024				270399.40
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024				<u><u>270399.40</u></u>

Bank of Baroda Account No. 30270100011139 (IHM FEES A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024				175009.95
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024				<u><u>175009.95</u></u>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG- 793018 :: MEGHALAYA

Bank Reconciliation Statement as on March 31st 2024

Bank of Baroda Account No. 30270100011141 (IHM HOSTEL FEES A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	270231.57
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>270231.57</u>

Bank of Baroda Account No. 30270100006479 (IHM PROVIDENT FUND A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	1774076.69
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>1774076.69</u>

Bank of Baroda Account No. 30270100009553 (IHM CAUTION MONEY A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	1816550.00
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>1816550.00</u>

Bank of Baroda Account No. 30270100009554 (IHM PENSION & GRATUITY A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	4847519.00
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>4847519.00</u>

ICICI Account No. 747701000103 (IHM CORPUS FUND A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	1744322.43
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>1744322.43</u>

ICICI Account No. 747701000087 (IHM BORDER AREA DEVELOPMENT FUND A/C)

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	20355.00
Balance as per Pass Book as on 31-03-2024	<u>20355.00</u>



THE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
MAWDIANG-DIANG :: SHILLONG - 793018 :: MEGHALAYA

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

<u>RECEIPTS</u>		<u>Amount</u>	<u>PAYMENTS</u>	<u>Amount</u>
<u>Opening Balance</u>				109289667.00
BoB A/c No. 1139 (Fees)	1858089.95		Addl. Infrastructure/ Site Development	4943.00
BoB A/c No. 1141 (Hostel Fees)	661112.60		Advance Settlement/ Receivable	71786.00
BoB A/c No. 11519 (ATC)	255653.16		Advertisement & Publicity Expenses	12.27
BoB A/c No. 6367 (Hostel)	160419.00		Bank Charges-1141 (Hostel Fees)	5289.79
BoB A/c No. 6462 (General)	3481491.09		Bank Charges-11519 (ATC)	1909.70
BoB A/c No. 6479 (Provident Fund)	1167148.10		Bank Charges-6367 (Hostel)	1317.00
BoB A/c No. 7469 (Building)	261930.40		Bank Charges- 6462 (General)	30.41
BoB A/c No. 9553 (Caution Money)	396239.00		Bank Charges-6479 (Provident Fund)	67228.00
BoB A/c No. 9554 (Pension & Gratuity)	756611.00		Board Meeting Expenses	117436.00
ICICI A/c No. 103 (Corpus Fund)	1692959.43		Bonus to Employees	110468.00
ICICI A/c No. 87 (Pension & Gratuity)	621716.00		Campus Interview & Recruitment Expenses	6000.00
ICICI A/c No. 98 (Border Area Fund)	19754.00	<b>11333123.73</b>	Caution Fees(1 & 1/2 Yr CCCFPP)	519500.00
			Caution Fees (Semester)	216000.00
			Children Education Allowance	94000.00
Accommodation Received (Hostel)		206911.00	Cloth, Uniform & Linen	138827.00
Admission Fees (1 & 1/2 Yr CCCFPP)		102000.00	Computer and Peripherals	2367137.00
Admission Fees (Semester)		137600.00	Consumable Raw Materials Exps (ATC)	6950.00
Advance Settlement/ Receivable		4943.00	Conveyance (Petty Cash)	224508.00
Advertisement & Publicity Expenses		6615.00	D. A. Arrears	8507.00
Advertisement Rec		200000.00	Ek Bharat Shreshtha Bharat Prog. Exps	427948.00
Bank Charges-1141 (Hostel Fees)		4.96	Electricity and Power-ATC	672310.00
Caution Fees(1 & 1/2 Yr CCCFPP)		204000.00	Electricity and Power-Gen	456787.00
Caution Fees (Semester)		688000.00	Electricity and Power-Hostel	178850.00
CGST/SGST - 11519 ATC		4321519.57	Electronic & Electrical Equipment- ATC	671000.00
CGST/SGST - 6367 Hostel		16493.00	Electronic & Electrical Equipment-Gen	307200.00
CGST/SGST - 6462 IHM SHG		223797.94	Enrolment Fee Remittances to NCHMCT	888040.00
Donation/Grants- Ministry of Tourism GOI (Capital)		127957422.00	Exam Fee Remittances, Remunerations & Other Exam Exp	20000.00
DOT Training Prog (Tourism Awareness Prog)-Receipts		1995000.00	Examination Advance (DRS Passah)	4000000.00
Dr_ Director of Agriculture		111669.00	Fixed Deposit (A/c No. 33350)	4000000.00
Earnest Money, Security Money		80000.00	Fixed Deposit (A/c No. 33351)	2000000.00
Enrolment Fees (1 & 1/2 Yr CCCFPP)		61200.00	Fixed Deposit (A/c No. 33538)	2000000.00
Enrolment Fees- NCHMCT (Receipt)		258000.00	Fixed Deposit (A/c No. 33593)	4000000.00
Examination Advance (DRS Passah)		20000.00	Fixed Deposit (A/c No. 33852)	17552000.00
Examination Fees(1 & 1/2 Yr CCCFPP)		267500.00	Fixed Deposit (A/c No. 34323)	2500000.00
Examination & Reappearance Fees (Receipt)		1331200.00	Flexi Fixed Deposit (A/c No. 6367) Hostel	2310000.00






Fines & Late Fees Received (Sem/ Hostel)	46360.00	Fruit Wine Mission Exps MFEC- ATC	546829.00
Fixed Deposit (A/c No. 32569)	3000000.00	Fruit Wine Mission Exps MFEC- Gen	41175.00
Fixed Deposit (A/c No. 32570)	3000000.00	Fruit Wine Mission Exps NEC- Gen	571793.00
Fixed Deposit (A/c No. 32571)	3000000.00	Furniture, Fixtures and Furnishing- ATC	641029.00
Fixed Deposit (A/c No. 32572)	3000000.00	Furniture, Fixtures and Furnishing- Campus	241750.00
Fixed Deposit (A/c No. 32573)	1714589.00	GST Payable	127308.00
Fixed Deposit (A/c No. 33350)	4000000.00	GST TDS	430389.00
Fixed Deposit (A/c No. 33351)	4000000.00	Hari Prasad (Pension)	180283.00
Fixed Deposit (A/c No. 33538)	2000000.00	Honorarium to Guest Faculty, Co-Ordinator, Etc.	114950.00
Fixed Deposit (A/c No. 33593)	4000000.00	Housekeeping Expenses (ATC)	24717.00
Fixed Deposit (A/c No. 34323)	2500000.00	Income Tax	418027.00
Fixed Deposit (A/c No. 747713001154)	13600000.00	Income Tax TDS Recvd FY- 2023-24	485534.00
Flexi Fixed Deposit (A/c No. 6367) Hostel	2282000.00	Insurance Vehicle	17061.00
Food Sale (ATC)	1765834.00	Jack Fruit Mission Expenses- ATC	48412.00
Food Sale Received (Hostel)	111090.00	JEE Expenses (Honorarium, Etc.)	554279.00
Fruit Wine- Megh Farmers Comm., GoM-Receipt	753784.00	JNU Enrolment Fees (Payment)	878490.00
Fruit Wine Mission Exps MFEC- Gen	1125.00	Kitchen Equipment	2099692.00
GPF/NPS Contribution of Staff (Receipt)	1739925.00	Library Books	727060.00
Hostel Fees Receipts	8112575.00	Linda Konghay (Ltc Advance)	13500.00
Income Tax	418027.00	Linda Konghay ( Training Advance)	25200.00
Interest Earned on FFD (6367) Hostel	14677.00	Loan to HSRT	1325000.00
Interest Earned on Grants-7469 (Building A/c)	8469.00	LPG Cylinders & Refilling (ATC)	101450.00
Interest Received- 1141 Hostel Fees	39374.00	LPG Cylinders & Refilling (Campus)	193900.00
Interest Received- 11519 ATC	37276.00	LPG Cylinders & Refilling (Hostel)	193900.00
Interest Received-6367 (Hostel)	1603.00	LTC Advance (Vivek Kumar)	36000.00
Interest Received-9553 Caution Money	65690.00	LTC Encashment And Expenses	104862.00
Interest Received-9554 Pension & Gratuity	55529.00	Medical Reimbursement	433657.00
Interest Received- 98 BAF	601.00	Membership Fees	26643.00
Interest Received- A/c No. 87 (Pension & Gratuity)	157726.00	Mobile Phone	23000.00
Interest Received-BOB 11139	121401.00	(NEIGHMS Guest House)-Payment	23539440.00
Interest Received (Gen A/c) 6462	62065.00	New Building Project at Mawdiangdiang	122262.00
Interest Received (Provident Fund)-6479	33846.00	NPS Charges	4744.00
Interest Received- 103 (Corpus)	51363.00	NPS Contribution of Staff (Payment)	2881969.00
Issue of Library Card Certificates & Mark sheets	15650.00	N Pyngrope(LTC Adv)	5400.00
JEE Advance (Ashok Kumar)	25000.00	Office Expenses(Advance)	134400.00
JNU Enrolment Fees (Receipt)	870105.00	Office Expenses- ATC	142673.00
Library Books	521650.00	Office Expenses- Campus	369308.00
License Fees From Salary (Income)	15840.00	Office Expenses (Petty Cash)	3720.00
Linda Konghay (Ltc Advance)	13500.00	Operational Expenses (Petty Cash)	2780.00
Loan to HSRT	1830000.00	Operational Expenses- Consumables, RM (College)	2004889.00
LTC Advance (Vivek Kumar)	49500.00	Operational Expenses- Consumables, RM (Hostel)	2058683.00



LTC Encashment And Expenses	8633.00	Operational Exps Adv (Mohan Chandra)	15000.00
Lunch Charges (Office Staff)	73500.00	Outdoor Catering Advance (Ashok Kumar)	95000.00
Lunch Charges (Outsourced Staff ATC)-ISA	2250.00	Outdoor Catering Expenses- ATC	795636.00
Lunch Charges (Outsourced Staff Campus)-ISA	107000.00	Outdoor Catering Expenses-Gen	108822.00
Lunch Charges (Security/MTS Etc. Staff)-UESSA	36500.00	Pension & Gratuity Contribution Exps.	8400000.00
Meghalaya State Rural Livelihood Society	184612.00	POL Charges (Petty Cash)	1000.00
Mid-Term Exam Fees (1 & 1/2 Yr CCCFPP)	186000.00	POL (Vehicle & Generator) Exps (ATC)	79901.00
Miscellaneous Incomes (Fees)	2321550.00	POL (Vehicle & Generator) Exps (Campus)	373671.00
Miscellaneous Receipt- ATC	137663.00	Postage and Telegram (Petty Cash)	29111.00
Miscellaneous Receipt (Campus/ Hostel)	566644.28	Prime Hub Expenses	5537261.00
Miscellaneous Incomes(1 & 1/2 Yr CCCFPP)	570000.00	Printing and Stationery Exps-ATC	40643.00
Misc. Expenses - GST	441.00	Printing and Stationery Exps- Campus	233865.00
(NEIGRHIMS Guest House)-Receipt	20080661.59	Printing and Stationery (Petty Cash)	5170.00
N Pynrope (GPF Advance)	60000.00	Professional & Accounting Charges-ATC	133340.00
Office Expenses(Advance)	134400.00	Professional & Accounting Charges- Campus	210020.00
Office Expenses- Campus	26400.00	Professional & Accounting Charges-Hostel	153400.00
Operational Exps Adv (Mohan Chandra)	12000.00	Professional Tax Payable	420.00
Other Revenue Deduction From Salaries	157144.00	Purchase of Tool Kit	257159.00
Outdoor Catering Advance (Ashok Kumar)	95000.00	Rain Water Harvesting	960000.00
Outdoor Catering Receipts- ATC	1087564.00	Refund of Semester/ Hostel Fees	271825.00
Outdoor Catering Receipts- Gen	736893.00	Remuneration From NCHMCT	42380.00
Pension & Gratuity Contribution Liabilities	840000.00	Repair and Maintenance- Computers & Peripherals	11948.00
Prime Hub- Megh Basin Mgt. Agency, GoM-Receipt	8286597.00	Repair and Maintenance (Cylinder & Gas)- ATC	3130.00
Printing and Stationery Exps-ATC	1077.00	Repair and Maintenance (Cylinder & Gas)- Campus	315060.00
Professional Tax Payable	52520.00	Repair and Maintenance (Plumbing)- ATC	11204.00
Remuneration From NCHMCT	99420.00	Repair and Maintenance (Plumbing)- Campus	30760.00
Rent for Installation of Tower (BSNL)	28600.00	Repair and Maintenance (Plumbing)- Hostel	1025.00
Room Rent (ATC)	7144047.00	Repair & Maintenance (Petty Cash- Hostel)	2400.00
Round Off	0.06	Repair & Maintenance (Vehicle)	32696.00
Sale of Food Items	121079.00	Repair & Maintenance (Building)-ATC	345193.00
Sale of Log Books	43215.00	Repair & Maintenance (Building)-Campus	42700.00
Sale of Tool Kits	118900.00	Repair & Maintenance (Building)-Hostel	2820.00
Sanjeet Kumar (LTC Advance)	10800.00	Repair & Maintenance (Electrical & Electronic)-ATC	14500.00
Security Deposit EMD	10000.00	Repair & Maintenance(Electrical &Electronic)-CAMPUS	136067.00
Security Deposit (Hostel Fees)	427000.00	Repair & Maintenance(Electrical & Electronic)-HOSTE	42805.00
Shemphang Khonglah (Training Advance)	20700.00	Repair & Maintenance (Furniture & Fixture)-ATC	495739.00
S Makdoh (GPF Advance)	39318.00	Repair & Maintenance (Furniture & Fixture)-CAMPUS	329708.00
Swachhta Hi Seva Advance (DRS Passah)	10000.00	Repair & Maintenance (Furniture & Fixture)-HOSTEL	213839.00
Swachhta Hi Seva Advance (Others)	7500.00	Repairs and Maintenance (Generator)- ATC	32527.00
Swachhta Hi Seva Expenses	17800.00	Repairs and Maintenance (Generator)- Campus	69095.00
Swatch Action Plan (SAP) Act-1 (Receipt)	116319.00	Repairs and Maintenance- Kitchen Equipment	141315.00



TDS Payable	400551.00	Repairs and Maintenance (Petty Cash)	1040.00
TDS Receivable-2022-23	72240.00	R K Chatterjee	10000.00
Telephone Advance (Mohan Chandra)	11512.00	Round Off	0.16
Telephone Charges (Incl. Internet & Cable)-ATC	8199.00	Salaries and Wages (FAO)	184166.00
Tender/Quotation Fees	9000.00	Salaries and Wages (Regular Employees)	19239403.00
Term Deposit Interest Earned- 1139	205372.00	Salaries and Wages (Senior Consultant)	1212888.00
Term Deposit Interest Earned- 6462	160913.00	Salaries & Wages (ATC)	402390.00
Training Prog. Adv. (Ashok Kumar)	32000.00	Salaries & Wages (Manpower Outsourcing)-ISA	13011773.00
Training Programme (Armedalin)	20000.00	Salaries & Wages (Manpower Outsourcing)-UESSA	1410486.00
Training Programme (Ashok Kumar)	9000.00	Sanjeet Kumar (LTC Advance)	10800.00
Training Programme (B Kharshiing)	18000.00	Security Charges (ATC)	16928.00
Training Programme Receipts- ATC	35720.00	Security Charges (Campus)	1896344.00
Training Programme Receipts- Gen	715655.00	Security Charges (Hostel)	37179.00
Training Programme (Stacy Wahlang)	20000.00	Security Deposit EMD	55000.00
Training Programme (Vivek Kumar)	20000.00	Security Deposit (Hostel Fees)	446000.00
Travelling and Conveyance Expenses	67621.00	Security Deposit (Training Advance)	20700.00
Tuition Fees(1 & 1/2 Yr CCCFPP)	3508000.00	Shemphang Khonglah (Training Advance)	300.00
Tuition Fees (Semester)	20639575.00	Short Deduction GST/ IT	300.00
W. Khongwar (GPF Advance)	60000.00	Student Activities Expenses	353517.00
Workshop/ Events Advance (DRS Passah)	20000.00	Student Activities Advance (Linda Konghay)	2400.00
Workshop, Seminar & Event Expenses- ATC	13250.00	Swachhta Hi Seva Advance (DRS Passah)	10000.00
Workshop, Seminar & Event Expenses- Gen	5581.00	Swachhta Hi Seva Advance (Others)	7500.00
Workshop, Seminar & Events Receipts-ATC	2045098.00	Swachhta Hi Seva Expenses	17800.00
Workshop, Seminar & Events Receipts-Gen	1075969.00	Swachhta Action Plan Receivables	105595.00
		Swatch Action Plan (SAP) Exps Activity-1	106780.00
		Swatch Action Plan (SAP) Exps Activity-2	45392.00
		TDS Payable	400551.00
<b>Closing Balance</b>	<b>23695.70</b>	Telephone Advance (Mohan Chandra)	11512.00
BoB A/c No. 6367 (Hostel) Rs 23,695.70		Telephone Charges (Incl. Internet & Cable)-ATC	149119.00
		Telephone Charges (Incl. Internet & Cable)-Campus	123054.00
		Training of Staff/ Faculty Development Prog.	308870.00
		Training Prog. Adv. (Ashok Kumar)	32000.00
		Training Programme (Ashok Kumar)	9000.00
		Training Programme (B Kharshiing)	18000.00
		Training Programme Expenses	123435.00
		Training Programme Expenses (DOT)	1713297.00
		Training & Workshop (Petty Cash)	515.00
		Travelling and Conveyance Expenses	70821.00
		Vertical Extension Boys and Girls Hostel	17500000.00
		Vijay Kumar (Pension)	1011780.00
		Workshop, Seminar & Event Expenses- ATC	1717877.00
		Workshop, Seminar & Event Expenses- Gen	1173619.00

